



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 9—अप्रैल 15, 2011 (चैत्र 19, 1933)

No. 15]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 9—APRIL 15, 2011 (CHAITRA 19, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the
Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2011

रक्षा (एमएस)/अनुभाग

सं. 129, दिनांक 18 फरवरी 2011—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक
वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी 2011 से निम्नलिखित नियुक्तियां करती हैं:—

अवैतनिक थल सेना एडीसी : इन्फैन्ट्री

(आईसी-25816) ले जनरल बिक्रम सिंह, उयुसेमै, अविसेमै, सेमै, विसेमै
(आईसी-24584) ले जनरल बीएस जसवाल, पविसेमै, अविसेमै बार,
विसेमै सेवा निवृत्त के स्थान पर।

आर सुन्दर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 130, दिनांक 18 फरवरी 2011—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

परखाधीन कप्तान के रैंक में

पाटिल रोहित दिनकर (वीएस-1158पी), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

रैमन मैथ्यू (वीएस-1159एक्स), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

शीतल सिंह (वीएस-1160एम), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

आशीष कुमार सिंह (वीएस-1161पी), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

चन्दन सिंह (वीएस-1162एक्स), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

प्रशान्त चौधरी (वीएस-1163ए), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

कपिल नेहरा (वीएस-1164एच), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

सुनील कुमार (वीएस-1165एल), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

आदित्य शर्मा (वीएस-1166एन), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

हर्मनजीत सिंह (वीएस-1167डब्ल्यू), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

दलबीर सिंह (वीएस-1168वाई), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

अंशुल रियोथिया (वीएस-1169एफ), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

सुधीर करनाल शर्मा (वीएस-1170डब्ल्यू), आरवीसी, 23 अगस्त 2010

ए वी बागुर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 131, दिनांक 18 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष यथासंशोधित थल सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाईंग अफसर के पद पर (परख पर)

सोरया सौरभ मोहाकुदा (एमआर-09010एल), एएमसी, 15 मार्च 2010

सौरभ (एमआर-09034पी), एएमसी, 15 मार्च 2010

टिंकू एन्थोनी (एमआर-09035एक्स), एएमसी, 15 मार्च 2010

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक, स से चि से (मासं)

सेना शाखा

सं. 132, दिनांक 21 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

(ले के पद पर 12 जून 2010 से)

निम्नलिखित 76 (छियत्तर) जैण्टलमैन कैंडिडेट्स जोकि 10+2 टी ई एस-15 पाठ्यक्रम के हैं, को 12 जून 2010 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है :--

आई सी सं., नाम तथा आर्म्स/सर्विस

(आईसी-72607एच) धीरेन्द्र सिंह राघव, ईएमई

(आईसी-72608एल) अनवे बहुगुणा, इंजीनियर्स

(आईसी-72609एन) संदीप वर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72610एच) नवजीत सिंह, ईएमई

(आईसी-72611एल) शैलेश कुमार यादव, सिग्नल्स

(आईसी-72612एन) जितेन्द्र सिंह रमोला, इंजीनियर्स

(आईसी-72613डब्ल्यू) नवीन कुमार, एएडी

(आईसी-72614वाई) सिद्धार्थ कटियार, इंजीनियर्स

(आईसी-72615एफ) सुशील कुमार, एसी

(आईसी-72616के) सुदीप मजुमदार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72617एम) रक्षित शर्मा, ईएमई

(आईसी-72618पी) चंदन कुमार, ईएमई

(आईसी-72619एक्स) रास श्रीवास्तव, इंजीनियर्स

(आईसी-72620एम) इन्द्र कुमार साहू, सिग्नल्स

(आईसी-72621पी) रौनक मलिक, सिग्नल्स

(आईसी-72622एक्स) चंचल शर्मा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72623ए) लोहित अहोम, इंजीनियर्स

(आईसी-72624एच) उदय वीर सिंह, ईएमई

(आईसी-72625एल) निमिष साम्बयाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72626एन) रवि शंकर शुक्ला, ईएमई

(आईसी-72627डब्ल्यू) प्रकाश रायकवार, आर्टी

(आईसी-72628वाई) संदीप कुमार, इंजीनियर्स

(आईसी-72629एफ) कुलहदय सिंह भल्ला, सिग्नल्स

(आईसी-72630डब्ल्यू) प्रशांत सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-72631वाई) अमर नाथ पॉल, इंजीनियर्स

(आईसी-72632एफ) सुदेश प्रताप सिंह, ईएमई

(आईसी-72633के) वरुण दिक्षित, आर्टी

(आईसी-72634एम) अमित डिमरी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72635पी) पी अरविन्द, इंजीनियर्स

(आईसी-72636एक्स) के सरवण कुमार, सिग्नल्स

(आईसी-72637ए) अरूपानन्द साहू, एविएशन

(आईसी-72638एच) अमित कुमार, एएससी

(आईसी-72639एल) मोहित मलिक, इंजीनियर्स

(आईसी-72640ए) डीसूजा एलेन अल्बर्ट, इंजीनियर्स

(आईसी-72641एच) विशाल शर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-72642एल) कमल जांगिड, मैक इन्फैन्ट्री

(आईसी-72643एन) सलभ भटनागर, आर्टी

(आईसी-72644डब्ल्यू) पुरुषोत्तम कुमार रजनीश, सिग्नल्स

(आईसी-72645वाई) भुवन चन्द्र जोशी, इंजीनियर्स

(आईसी-72646एफ) अशोक कुमार चिकारा, आर्टी

(आईसी-72647के) पंकज कुमार तिवारी, ईएमई

(आईसी-72648एम) अभिषेक सहरावत, ईएमई

(आईसी-72649पी) दीपक चौहान, सिग्नल्स

(आईसी-72650के) आशीष द्विवेदी, सिग्नल्स

(आईसी-72651एम) जयदीप चौधरी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72652पी) घनेकर विश्वजीत श्रीप्रकाश, सिग्नल्स
 (आईसी-72653एक्स) जतिन शर्मा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72654ए) हर्षित चाहर, एएससी
 (आईसी-72655एच) एस विमनेश, एओसी
 (आईसी-72656एल) राघव पांडे, ईएमई
 (आईसी-72657एन) यशवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72658डब्ल्यू) जगेश्वर गौनियाल, आर्टी
 (आईसी-72659वाई) वेद प्रकाश, सिग्नल्स
 (आईसी-72660एन) यशु त्रिपाठी, ईएमई
 (आईसी-72661डब्ल्यू) गौरव कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-72662वाई) रोहित डी सप्रे, इंजीनियर्स
 (आईसी-72663एफ) शम्भु कुमार सिंह, इंटर
 (आईसी-72664के) डैली फ्रांसिस, इंजीनियर्स
 (आईसी-72665एम) बिबिन एन भूवेन्द्रन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72666पी) अंकित जून, ईएमई
 (आईसी-72667एक्स) चित्रेश बिष्ट, इंजीनियर्स
 (आईसी-72668ए) वरूण सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-72669एच) जय सिंह सोलंकी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72670एक्स) चिन्मय नन्दन घोष, इंजीनियर्स
 (आईसी-72671ए) रमेशकुमार आर, ईएमई
 (आईसी-72672एच) जाधव धीरज भारत, इंजीनियर्स
 (आईसी-72673एल) प्रमोद कुमार त्रिपाठी, इंजीनियर्स
 (आईसी-72674एन) दुष्यंत राठी, सिग्नल्स
 (आईसी-72675डब्ल्यू) दीपांकन शर्मा, एएडी
 (आईसी-72676वाई) मोइंगथेम फनिलकान्त सिंह, इंजीनियर्स
 (आईसी-72677एफ) मस्तानवली शेख, ईएमई
 (आईसी-72678के) अमरदीप सिंह, ईएमई
 (आईसी-72679एम) भारतेन्द्र कौशिक, ईएमई
 (आईसी-72680एफ) उप्रेती शौर्यमधुर दीपचंद्र, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72681के) हयुडाम निरंजन सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-72682एम) प्रकाश त्रिपाठी, एसी

स्थाई आयोग

निम्नलिखित 91 (इक्कयानबे) जैण्टलमैन कैडेट्स जोकि 109 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम (टीजीसी) और 18 विश्वविद्यालय प्रवेश योजना (यूईएस) पाठ्यक्रम के हैं, जिनके जी सी संख्या के पहले टी (प्रदर्शित टीजीसी) और

यू (प्रदर्शित यूईएस) उपसर्ग लगे हुए हैं, को 12 जून 2010 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यूईएस पाठ्यक्रम वालों को लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है, उन्हें 12 जून 2008 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत टीजीसी पाठ्यक्रम वालों को और सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत यूईएस पाठ्यक्रम वालों को दो वर्ष पूर्व की दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है:--

आईएमए सं., नाम, आईसी सं. तथा आर्म्स/सर्विस

यू/1001 अमानत जगजीत सिंह (आईसी-72683पी), एसी
 टी/6688 डी कृष्णा कुमार (आईसी-72684एक्स), इंजीनियर्स
 टी/6686 मनिकण्डन एम (आईसी-72685ए), एसी
 यू/945 वाईकर आनंद दीपक (आईसी-72686एच), ईएमई
 टी/6679 बनहट्टी करण सिंह (आईसी-72687एल), इंजीनियर्स
 टी/6651 राहुल देव ए (आईसी-72688एन), आर्टी
 टी/6662 देवमाल्या मुखर्जी (आईसी-72690एल), आर्टी
 टी/6684 ऋषि आर (आईसी-72692डब्ल्यू), मैक इन्फैन्ट्री
 यू/969 सिमान्त कमल दत्ता (आईसी-72694एफ), एएडी
 यू/979 जगदीश शेट्टीपा नंदिहाल (आईसी-72695के), इंजीनियर्स
 यू/944 टिलानी निमेश चिमनलाल (आईसी-72696एम), इंजीनियर्स
 टी/6674 अतुल थापा (आईसी-72697पी), सिग्नल्स
 टी/6676 भव्य सिंह सिसौदिया (आईसी-72699ए), ईएमई
 यू/952 सिमरत पाल सिंह थिंड (आईसी-72700के), ईएमई
 टी/6648 अनुज सिंह चौहान (आईसी-72701एम), इंजीनियर्स
 टी/6652 सिमरनजीत सिंह (आईसी-72703एक्स), ईएमई
 यू/970 ऋषभ यादव (आईसी-72704ए), सिग्नल्स
 टी/6660 रणजोध सिंह (आईसी-72705एच), एसी
 टी/6681 नितेश कुमार सांगवान (आईसी-72706एल), एओसी
 यू/974 करन वासुदेव (आईसी-72707एन), आर्टी
 टी/6647 गौरव मित्तल (आईसी-72708डब्ल्यू), सिग्नल्स
 यू/996 संजीव सिंह (आईसी-72709वाई), ईएमई
 टी/6668 राज कुमार (आईसी-72711डब्ल्यू), ईएमई
 यू/976 अंकित सिंह रावत (आईसी-72712वाई), ईएमई
 यू/978 एम दीपक (आईसी-72713एफ), ईएमई
 यू/1005 बिरेन्द्र सिंह (आईसी-72714के), इंजीनियर्स

- यू/983 हरप्रीत सिंह लीडर (आईसी-72715एम), इंजीनियर्स
यू/986 आदित्य कौशिक (आईसी-72716पी), सिग्नल्स
टी/6653 रवि जम्वाल (आईसी-72717एक्स), ईएमई
यू/1019 मंजुल राज (आईसी-72718ए), इंजीनियर्स
यू/1014 सचिन धीमान (आईसी-72720एक्स), ईएमई
टी/6633 रविन्द्र सिंह जोधा (आईसी-72721ए), एएससी
यू/961 बिभूति भूषण बरबरूआ (आईसी-72722एच), इंजीनियर्स
टी/6634 रविन्द्र सिंह महला (आईसी-72723एल), इंजीनियर्स
टी/6655 उदित चतुर्वेदी (आईसी-72724एन), सिग्नल्स
टी/6657 दुर्गा प्रसाद मिश्रा (आईसी-72725डब्ल्यू), सिग्नल्स
यू/959 सतनाम सिंह (आईसी-72726वाई), इंजीनियर्स
टी/6675 अभिनव शर्मा (आईसी-72727एफ), इंजीनियर्स
यू/984 प्रनो रोबर्ट (आईसी-72728के), इंजीनियर्स
टी/6682 मोहित (आईसी-72730एफ), एओसी
यू/992 शैलेन्द्र सायवाल (आईसी-72731के), सिग्नल्स
यू/990 ऋषभ सूद (आईसी-72732एम), सिग्नल्स
यू/991 संकल्प डोगरा (आईसी-72733पी), सिग्नल्स
यू/1009 अभिनव चौहान (आईसी-72734एक्स), इंजीनियर्स
टी/6663 दिलदीप सिंह चैहल (आईसी-72735ए), एसी
यू/980 विनीत एस (आईसी-72736एच), इंजीनियर्स
यू/960 विकास कुमार श्रीवास्तव (आईसी-72737एल), इंजीनियर्स
यू/999 मयंक माथुर (आईसी-72738एन), इंजीनियर्स
टी/6636 अमित कुमार झा (आईसी-72739डब्ल्यू), ईएमई
टी/6642 अनिमेष दूबे (आईसी-72740एल), सिग्नल्स
यू/1015 तमन सोढ़ी (आईसी-72741एन), ईएमई
टी/6669 सुशान्त द्विवेदी (आईसी-72742डब्ल्यू), सिग्नल्स
टी/6687 दीपक बोहरा (आईसी-72743वाई), मैक इन्फैन्ट्री
यू/1018 कुमार अमित यादव (आईसी-72744एफ), सिग्नल्स
यू/954 थैमैय्या आई बी (आईसी-72745के), इंजीनियर्स
यू/995 नागेन्द्र प्रताप सिंह (आईसी-72746एम), इंजीनियर्स
यू/947 एमीस तम्बी जोण (आईसी-72747पी), ईएमई
टी/6650 हर्षवर्धन सिंह सालाधिया (आईसी-72748एक्स), सिग्नल्स
यू/953 राघवेंद्र प्रसाद जी एम (आईसी-72749ए), ईएमई
यू/998 सैय्यद नाजिम मेहदी (आईसी-72750पी), एएडी
टी/6637 रोहन वर्मा (आईसी-72751एक्स), इंजीनियर्स
टी/6691 साकेत झा (आईसी-72752ए), मैक इन्फैन्ट्री
यू/987 कुलदीप कुमार (आईसी-72753एच), इंजीनियर्स
टी/6685 अंकुश शर्मा (आईसी-72754एल), एसी
यू/914 सुचिता पांडे (आईसी-72756डब्ल्यू), इंजीनियर्स
यू/964 जोबिन एम वर्गीस (आईसी-72757वाई), मैक इन्फैन्ट्री
टी/6690 भारत मोहन (आईसी-72758एफ), इन्फैन्ट्री
टी/6639 सचिन सिंह रावत (आईसी-72759के), एएससी
टी/6649 यशवंत सुहाग (आईसी-72760वाई), ईएमई
यू/968 अभय कुमार सिंह (आईसी-72761एफ), सिग्नल्स
यू/950 कुलकर्णी शुभम दीपक (आईसी-72762के), सिग्नल्स
यू/982 अतुल पाराशर (आईसी-72763एम), इंजीनियर्स
यू/985 गौरव कटैत (आईसी-72764पी), आर्टी
यू/993 शिशिर मकवाना (आईसी-72765एक्स), इंजीनियर्स
यू/1013 नवनीत गोपिनाथन (आईसी-72766ए), ईएमई
टी/6680 आभास शर्मा (आईसी-72767एच), ईएमई
टी/6667 दिपेन्द्र धन्जल (आईसी-72768एल), सिग्नल्स
यू/1011 जतिन कुमार (आईसी-72769एन), सिग्नल्स
यू/957 हरी शंकर आर नायर (आईसी-72770एच), सिग्नल्स
टी/6665 अभय सिरोही (आईसी-72771एल), ईएमई
यू/1000 जेरिन मार्टिन (आईसी-72772एन), एएडी
यू/948 क्रान्ति कनाल (आईसी-72773डब्ल्यू), आर्टी
यू/1012 शेखर कुमार (आईसी-72774वाई), इंजीनियर्स
टी/6689 यजुवेन्द्र कुमार गौतम (आईसी-72775एफ), इंजीनियर्स
टी/6646 मनीष मखलोगा (आईसी-72777एम), एएडी
टी/6644 भृगु व्यास पात्रो (आईसी-72778पी), एएससी
यू/965 अभिमन्यु महाजन (आईसी-72780एम), ईएमई
यू/962 ओमकार उदय भडभडे (आईसी-72781पी), इंजीनियर्स
यू/1004 अरूण पुन्डीर (आईसी-72782एक्स), ईएमई
यू/901 गौरव जैर (आईसी-72783ए), इंटर
यू/924 अंकुर त्यागी (आईसी-72784एच), ईएमई
2. निम्नलिखित 02 (दो) आफिसर्स को भी सेना अनुदेश 105/61 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत से ले के पद पर 12 जून 2010 (पूर्वाह्न) से स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है:--
टी/6638 श्रीनिवासन सुन्दर राज (आईसी-72793वाई), एईसी
टी/6635 संदीप चन्द (आईसी-62798एक्स), एमएफ

निम्नलिखित 03 (तीन) जैण्टलमैन कैंडेट्स, जो कि 108 टीजीसी पाठ्यक्रम के हैं, को 12 दिसम्बर 2009 (पूर्वाह्न) से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 12 दिसम्बर 2007 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है:--

टी/6625 सत्यजीत पोद्दार (आईसी-72183एक्स), सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/6623 अलोक अवस्थी (आईसी-72182पी), सिग्नल्स के नीचे, टी/6601 सुनित राज चौधरी (आईसी-72190एन), इंजीनियर्स की वरिष्ठता यू/859 राम सी (आईसी-72189वाई), इंजीनियर्स के नीचे और टी/6607 संतोष गंगाधरन (आईसी-72192वाई), सिग्नल्स की वरिष्ठता टी/6627 जी योगेन्द्र कुमार रेड्डी (आईसी-7291डब्ल्यू), ईएमई के नीचे प्रकाशित किय जायें, जिनके नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 31 जुलाई 2010 को प्रकाशित हो चुके हैं।

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 03 (तीन) जैण्टलमैन कैंडेट्स, जो कि 108 टीजीसी पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिये जो कि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है:--

आईएमए सं., नाम, एसएस सं., आर्म्स/सर्विस तथा अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

108 तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम

टी/6601 सुनित राज चौधरी (एसएस-43798ए), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

टी/6607 संतोष गंगाधरन (एसएस-43804एच), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

टी/6625 सत्यजीत पोद्दार (एसएस-43820ए), सिग्नल्स, 14 जनवरी 2009

जैण्टलमैन कैंडेट्स को दिये गये आर्म्स/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

राहुल शर्मा
ले कर्नल
एमएस-8बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 133, दिनांक 21 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से रु. 15,600--39,100/- (पे बैंड-3) + 5,400/- ग्रेड पे के वेतनमान में

दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर नियुक्त किया जाता है:--

पिन संख्या, नाम, स्थापना/प्रयोगशाला तथा नियुक्ति की तिथि

2008एबी1009 श्री एम एस के रेड्डी, एडीई, बेंगलौर, 21 मई 2008

2008एबी1540 श्री तरुण गुप्ता, एडीई, बेंगलौर, 03 दिसम्बर 2008

2007एबी1061 श्री अकिलान जे, एडीई, बेंगलौर, 14 नवम्बर 2007

2008एबी1304 श्री सौरभ सिंह, एडीआरडीई, आगरा, 21 मई 2008

2010एबी1084 श्री अभिनव, एडीआरडीई, आगरा, 19 मई 2010

2009एबी1031 श्री बच्चू प्रसाद, अनुराग, हैदराबाद, 03 जून 2009

2009एबी1055 श्री अजय कुमार मीणा, एआरडीई, पुणे, 21 मई 2008

2008एबी1638 श्री माजी डी वी हरि किशोर, एसएल, हैदराबाद, 24 सितम्बर 2008

2009एबी1491 श्री देव कुमार यादव, डीएफआरएल, मैसूर, 09 अप्रैल 2009

2008एबी1261 सुश्री नेहा भंडारी, डीएल, जोधपुर, 22 मई 2008

2010एबी1018 सुश्री अंकिता अग्रवाल, डीएल, जोधपुर, 19 मई 2010

2008एबी1301 श्री अशोक कुमार अहिवार, डीएलआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008एबी1322 श्री परमानंद बी, डीएमआरएल, हैदराबाद, 21 मई 2008

2008एबी1635 श्रीमती बी गुगुलूट्टू, डीआरडीएल, हैदराबाद, 16 अक्टूबर 2008

2010एबी1054 श्री राम बी शंकर, डीआरडीएल, हैदराबाद, 19 मई 2010

2007एबी1106 श्री अशोक कुमार आर जी, डीआरडीएल, हैदराबाद, 14 नवम्बर 2007

2009एबी1386 श्री जीवन कुमार, जीटीआरई, बेंगलौर, 03 जून 2009

2010एबी1164 श्री एस सुरेश बाबू, जीटीआरई, बेंगलौर, 19 मई 2010

2010एबी1207 श्री जयेश उपाध्याय, एचईएमआरएल, पुणे, 03 सितम्बर 2010

2008एबी1118 श्री आशीष कुमार, आईआरडीई, देहरादून, 21 मई 2008

2008एबी1003 श्री संदीप सगु, ईसा, दिल्ली, 21 मई 2008

2009एबी1367 श्री सौमित्रा राय, आईटीआर, बालासौर, 03 जुलाई 2009

2010एबी1140 श्री सौमया रंजन प्रधान, आईटीआर, बालासौर, 19 मई 2010

2010एबी1031 श्री रामेश कुमार पटेल, आईटीआर, बालासौर, 19 मई 2010

2010एबी1056 श्री नागा एस रोंगाला, एलआरडीई, बेंगलौर, 19 मई 2010

2010एबी1122 श्री श्रीजीत सी ए, एलआरडीई, बेंगलौर, 19 मई 2010

2008एबी1210 श्री गानालक्ष्मी जी पी, एनपीओएल, कोच्ची, 21 मई 2008

2010एबी1135 श्री विनोदकृष्णन वी, एनपीओएल, कोच्ची, 19 मई 2010

2009एबी1411 श्री शंकर के, एनएमआरएल, अंबरनाथ, 03 जून 2009

2010एबी1014 श्री विशाल विजय दलवी, एनएमआरएल, अंबरनाथ, 19 मई 2010

2005एबी1483 श्री श्रीकांत कोट्य, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 14 अप्रैल 2005

2009एबी1027 श्री सूरी बाबू कोरदा, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 03 जून 2009

2010एबी1049 श्री अरविंद शास्त्री एम, एनएसटीएल, विशाखापत्तनम, 19 मई 2010

2008एबी1404 सुश्री एस साहू, पीएक्ससी, बालासौर, 21 मई 2008

2008एबी1597 श्री करूणाकर बी, पीएक्ससी, बालासौर, 03 दिसम्बर 2008

2008एबी1314 श्री के एन वामसी कृष्णा, आरसीआई, हैदराबाद, 21 मई 2008

2009एबी1041 श्री घनश्याम मीणा, आरसीआई, हैदराबाद, 03 जून 2009

2007एबी1131 श्री रामाराव के, आरसीआई, हैदराबाद, 23 मई 2007

2010एबी1144 श्री राघवेन्द्र के, आरसीआई, हैदराबाद, 19 मई 2010

2010एबी1036 श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा, आरसीआई (प्रोजेक्ट-ए डी), हैदराबाद, 19 मई 2010

2008एबी1620 श्री राकेश मीणा, आर एंड डी ई (ई), पुणे, 03 दिसम्बर 2008

2009एबी1014 श्री मनीष कुमार शाह, स्पीक, दिल्ली, 03 जून 2009

2009एबी1147 श्री एस के नायक, स्पीक, दिल्ली, 03 जून 2009

2008एबी1359 श्री के भास्कर, स्पीक, दिल्ली, 21 मई 2008

2008एबी1546 सुश्री शमीना सिद्दीकी, एसएसपीएल, दिल्ली, 03 दिसम्बर 2008

2010एबी1208 श्री दीपक सहगल, टीबीआरएल, चंडीगढ़, 16 अगस्त 2010

2008एबी1398 श्री सुधाकर धर्मा पाटिल, वीआरडीई, अहमदनगर, 19 अगस्त 2008

2008एबी1562 श्री मो. आई अफजल, वीआरडीई, अहमदनगर, 03 दिसम्बर 2008

2010एबी1138 श्री वी एस पी चैतन्य बौरा, वीआरडीई, अहमदनगर, 19 मई 2010

वी पी पांडे
सह निदेशक (कार्मिक)

थल सेना शाखा

सं. 134, दिनांक 21 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ग्रुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कर्पोरेटर (व समकक्ष) के पद पर
ए के पात्रा (एमआर-05091वाई) (30703), 17 सितम्बर 2009

अजोय माहेन (एमआर-04054वाई) (30706), 05 अक्टूबर 2009
वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 22 सितम्बर 2009 से दी जाती है।

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा.सं)

सेना शाखा

सं. 135, दिनांक 22 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

लेफ्टि कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में
वैयक्तिक सं., नाम, आर्म तथा मूल रैंक की तिथि

(आईसी-49841) ए शर्मा, ईएमई, 14 मार्च 2010 किन्तु वरिष्ठता
दिनांक 10 जनवरी 2008 से बिना वेतन एवं पेंशन पर प्रभाव के।

टी के दास

उप निदेशक

एमएस-8ए

सं. 136, दिनांक 22 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन अभिजीत डे टीए(एम)-1205 (एमसी टीए), 04 फरवरी 2008

कैप्टन ए के पाठक टीए(एम)-1221 (एमसी टीए), 24 सितम्बर 2008

जय राज

उप सचिव

सेना शाखा

सं. 137, दिनांक 22 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां उनके नाम के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :--

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा आयोग

कप्तान से मूलत्व मेजर के रैंक में

(वीएस-1103एल) कप्तान सुधीष एस नायर, आरवीसी, 20 दिसम्बर 2008

(वीएस-1114एक्स) कप्तान अनीष अनटोनी, आरवीसी, 20 दिसम्बर 2008

(वीएस-1116एच) कप्तान डोडप्पा हूगर, आरवीसी, 20 दिसम्बर 2008

(वीएस-1108के) कप्तान एस शुभीष, आरवीसी, 20 दिसम्बर 2009

(वीएस-1110एफ) कप्तान नवनीत जोशी, आरवीसी, 20 दिसम्बर 2009

(वीएस-1115ए) कप्तान दीपक ई वी, आरवीसी, 20 दिसम्बर 2009

ए वी बागुर
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 138, दिनांक 23 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मेजर

आई सी संख्या, नाम तथा आर्म

(आईसी-66505) पिसाल अभय विजयसिंह, ईएमई

(आईसी-66506) सुचिंद्र द्विवेदी, ईएमई

(आईसी-66509) मंजूनाथ आर, सिग्नल्स

(आईसी-66510) सरबजोत सिंह सोही, ईएमई

(आईसी-66513) गगनदीप कुमार, सिग्नल्स

(आईसी-66516) विवेक बिंद्रा, इंजीनियर्स

(आईसी-66517) बलजीत सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-66518) ताहिर मुस्ताफा, इंजीनियर्स

(आईसी-66520) दीपक वर्मा, ईएमई

(आईसी-66521) प्रवीण डोगरा, सिग्नल्स

(आईसी-66522) गगनदीप सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-66527) जी आनंद, सिग्नल्स

(आईसी-66530) तोरगल संजीव लक्ष्मण, ईएमई

(आईसी-66532) चौधरी जयंत भगवान, इंजीनियर्स

(आईसी-66533) सफल कुमार झा, इंजीनियर्स

(आईसी-66534) प्रशांत त्रिवेदी, सिग्नल्स

--17 अक्टूबर 2009

राहुल शर्मा

लेफ्टि कर्नल

एएमएस-8बी

सेना शाखा

सं. 139, दिनांक 23 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारियों की सामने देय तिथि से पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सर्जन लेफ्टि कमान्डर के पद पर

रानी मलिक (एमआर-08973एल) (75929आर), एएमसी, 22 सितम्बर 2010

माधुरी मट्ट्य (एमआर-09051पी) (एमएस-15247वाई) (75923ए), एएमसी, 21 अप्रैल 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 फरवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

नताशा (एमएस-14925एफ) (75881एफ) (एमआर-09050एम), एएमसी, 27 दिसम्बर 2009

सर्जन ले के पद पर

नताशा (एमएस-14925एफ) (75881एफ) (एमआर-09050एम), एएमसी, 27 दिसम्बर 2005, इन्टर्नशिप पूरा होने के पश्चात्

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 14 जुलाई 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

प्रियदर्शी पत्रा (एमएस-15407एन) (75932वाई) (एमआर-09059एफ), एएमसी, 31 अगस्त 2007, इन्टर्नशिप पूरा होने के पश्चात्

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 27 दिसम्बर 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

जेबिन जोसफ (एमआर-08929एफ) (76031वाई), एएमसी, 10 अगस्त 2010

कप्तान के पद पर

मायंक नामदेव (एमएस-15279एफ) (एमआर-09053ए), एएमसी, 20 फरवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)

गुरप्रीत कौर (एमआर-08831एन), एएमसी, 11 फरवरी 2010

बेहेरा महेश (एमआर-08839ए), एएमसी, 11 फरवरी 2010

अदिल अशरफ (एमआर-08850वाई), एएमसी, 11 फरवरी 2010

हरप्रीत सिंह दिल्लीन (एमआर-08858एल), एएमसी, 11 फरवरी 2010

अंजनी कुमार (एमआर-08890ए), एएमसी, 11 फरवरी 2010

यश पांडे
ब्रिगे

उप महानिदेशक स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 140, दिनांक 23 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एसएल)

लेफ्टि से कप्तान

नाम, एसएल सं. व आम

राज कुमार चौहान (04987), एईईबी/आर एंड एसडब्ल्यू

सुनील एम एल (04994), एजुकेशन ऑफिसर

अश्वय कुमार रौत (05000), आईसीओ

--13 अगस्त 2010

राहुल शर्मा
लेफ्टि कर्नल
एमएस-8बी

सेना शाखा

सं. 141, दिनांक 24 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नतियां करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन के पद पर

लेफ्टि करण सिंह राजपूत (टीए-42669), इन्फैन्ट्री, 23 अक्टूबर 2010

लेफ्टि अश्विनी भूरिया (टीए-42670), इन्फैन्ट्री, 04 नवम्बर 2010

लेफ्टि राज कुमार शर्मा (टीए-42671), इन्फैन्ट्री, 21 अक्टूबर 2010

लेफ्टि रामचन्द्रा सिंह नगरकोटी (टीए-42675), इन्फैन्ट्री, 27 नवम्बर 2010

लेफ्टि विक्रम सिंह (टीए-42676), इन्फैन्ट्री, 14 नवम्बर 2010

लेफ्टि गौरव चौहान (टीए-42677), इन्फैन्ट्री, 31 अक्टूबर 2010

जय राज
उप सचिव

थल सेना विभाग

सं. 142, दिनांक 24 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां/पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

कोर ऑफ सिग्नल्स

स्थायी सूबेदार मेजर (वाई ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार मोहन लाल (जेसी-370182पी), 01 नवम्बर 2010

स्थायी सूबेदार मेजर (एफ ऑफ एस) के रैंक में

सूबेदार अखिलेश कुमार सिंह (जेसी-369031 के), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार डी सिरिया दुर्ई (जेसी-369034एक्स), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार केहर चन्द (जेसी-368566एल), 01 नवम्बर 2010

स्थायी सूबेदार मेजर (ओ पी साईफर) के रैंक में

सूबेदार करतार सिंह (जेसी-373338एम), 01 नवम्बर 2010

स्थायी सूबेदार मेजर/क्लर्क (एसडी) के रैंक में

सूबेदार डी एस शिगोकर (जेसी-371005एच), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार जगदीश चन्द्र (जेसी-371147वाई), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार शम्भू नाथ खजूरिया (जेसी-371148एफ), 01 नवम्बर 2010

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार विश्वा नाथ सिंह (जेसी-372713ए), 01 अगस्त 2010

सूबेदार बाबू लाल (जेसी-372855एक्स), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-372856ए), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार तीरथ सिंह रावत (जेसी-372863डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2010

सूबेदार डी एस नारायणा राजू (जेसी-372977एफ), 03 दिसम्बर 2010

(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार सुरेश कुमार बघेल (जेसी-372978के), 01 दिसम्बर 2010

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

- नायब सूबेदार पंदप्पा (जेसी-376315डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 नवम्बर 2008 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार कौशल कुमार सिंह (जेसी-376848वाई), 01 सितम्बर 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार अनिल कुमार तिवारी (जेसी-376918एम), 01 अगस्त 2009
- नायब सूबेदार वी. एस. पी. सिंह (जेसी-377069एच), 01 नवम्बर 2009
- नायब सूबेदार महेश प्रसाद सिंह (जेसी-377263एक्स), 01 फरवरी 2010
- नायब सूबेदार धरम वीर (जेसी-377413एच), 08 मई 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार बंसता कुमार सेती (जेसी-377414एल), 05 अप्रैल 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह (जेसी-377428एल), 01 अप्रैल 2010
- नायब सूबेदार आर. के. त्रिपाठी (जेसी-377510ए), 02 अप्रैल 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार हरी ओम (जेसी-377521एम), 01 अप्रैल 2010
- नायब सूबेदार पतितपाबन साहू (जेसी-377589एन), 05 मई 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार पलटन प्रसाद (जेसी-377600एफ), 01 मई 2010
- नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-377615के), 01 मई 2010
- नायब सूबेदार विक्रम सिंह (जेसी-377618एक्स), 01 मई 2010
- नायब सूबेदार डी. पी. मिश्रा (जेसी-377621एक्स), 11 मई 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2010 से दी जायेगी)

- नायब सूबेदार बैज नाथ (जेसी-377652एक्स), 01 जुलाई 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार नरविंदर सिंह (जेसी-377734ए), 02 जुलाई 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार श्याम सुन्दर शर्मा (जेसी-377735एच), 01 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार एम. एस. यादव (जेसी-377737एन), 13 जुलाई 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-376400वाई), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार (जेसी-376472एच), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-376858एच), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार देवाशीष सरकार (जेसी-378725एल), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार मलिखान सिंह (जेसी-377063एफ), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार दीपक चन्द्र (जेसी-378727डब्ल्यू), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह करकी (जेसी-377241वाई), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार एम. मुरुगन (जेसी-377269वाई), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार बाबू पी. एम. (जेसी-378147एफ), 15 जुलाई 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-378369डब्ल्यू), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-377349डब्ल्यू), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार जीतेन्द्र सिंह रावत (जेसी-377423एम), 08 जुलाई 2010
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2010 से दी जायेगी)
- नायब सूबेदार मुन्ना लाल (जेसी-377404एफ), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार बी. एल. सिंह (जेसी-377503के), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार धरमवीर (जेसी-377519पी), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार नियाज खान (जेसी-377526एल), 02 जुलाई 2010
- नायब सूबेदार एस. एम. शामराव (जेसी-377593डब्ल्यू), 02 जुलाई 2010

नायब सूबेदार राज पाल सिंह (जेसी-377607एल), 02 जुलाई 2010

नायब सूबेदार सारथ चन्द्रन पी एस (जेसी-378200एफ), 02 जुलाई 2010

नायब सूबेदार जीतेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-378031एन), 10 जुलाई 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पी मूर्ति (जेसी-377654एच), 02 जुलाई 2010

नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-377659एफ), 02 जुलाई 2010

नायब सूबेदार हर भगवान (जेसी-377660डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार ओम प्रकाश पाण्डेय (जेसी-377662एफ), 14 अगस्त 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-377664एम), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-377681एम), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार पी सी सिंह (जेसी-377738डब्ल्यू), 13 अगस्त 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जेसी-377739वाई), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार माधवन डी (जेसी-377741डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार पचा आनंद (जेसी-377743एफ), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार जी पलानिवेल (जेसी-377744के), 09 अगस्त 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार देवी सिंह (जेसी-377745एम), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार जी सेल्वा नारायणन (जेसी-377746पी), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार राजू बी (जेसी-377747एक्स), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सावंत सिंह (जेसी-377748ए), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार शक्ति सिंह (जेसी-378739एल), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सम्भू शाह (जेसी-377749एच), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार राजेन्द्र पी डी सिंह (जेसी-377750एक्स), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार अजायन आर (जेसी-377751ए), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बचे सिंह (जेसी-377752एच), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार बेदानंद रॉय (जेसी-377753एल), 02 अगस्त 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शीषपाल सिंह (जेसी-377754एन), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार जीतन प्रसाद (जेसी-377755डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-377756वाई), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार रोशन लाल (जेसी-377757एफ), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार हरी ओम (जेसी-377758के), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-377759एम), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार एम एन पट्टनायक (जेसी-377760एफ), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार संकारसन स्वेन (जेसी-377761के), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार रमेश तिवारी (जेसी-377762एम), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार नरेश सिंह (जेसी-377763पी), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार आर एस भोरियाल (जेसी-377765ए), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार रंजीत सिंह (जेसी-377766एच), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार विजय बहादुर यादव (जेसी-378370एल), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार पवन कुमार सिंह (जेसी-377767एल), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार राजवंश सिंह (जेसी-377768एन), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार जगतार सिंह (जेसी-377769डब्ल्यू), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जेसी-377770एल), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार उदय नारायण सिंह (जेसी-377771एन), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार प्रोदिप चेतिया (जेसी-377833एच), 08 सितम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कृष्णा कुमार एस (जेसी-377834एल), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार हलाचल प्रसाद (जेसी-377836डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार रजत कुमार डे (जेसी-377837वाई), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार कृष्णा चन्द्र (जेसी-377839के), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार जेकोब एम के (जेसी-377840वाई), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार कुर्दा राम (जेसी-377841एफ), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार ददन यादव (जेसी-377842के), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार एन एल पी मिश्रा (जेसी-377844पी), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार शिव प्रताप सिंह (जेसी-377845एक्स), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार सुरेश कुमार एस (जेसी-377846ए), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार सईद एम डी अले नोवाज (जेसी-377847एच), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार उन्नीकृष्णनन के (जेसी-377848एल), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार अहेर अप्पाराव भिखा (जेसी-377849एन), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार पी एम जेना (जेसी-377850एच), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार डी एन साहू (जेसी-377851एल), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार धमाल अशोक ज्योति राम (जेसी-377852एन), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार रोहातास (जेसी-377853डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार देविन्द्र सिंह (जेसी-377854वाई), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार काम्बले अरूण राम राव (जेसी-377856के), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जेसी-377857एम), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार कनै लाल दास (जेसी-377858पी), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार अदम अली (जेसी-377859एक्स), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार मनाब इन्द्रा दास (जेसी-377860एम), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार ओम प्रकाश शर्मा (जेसी-377862एक्स), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-377863ए), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-377864एच), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार भीम सिंह (जेसी-377865एल), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार रघनाथन एम (जेसी-377866एन), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार इन्द्रेश कुमार (जेसी-377867डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार सी एम कुशबाहा (जेसी-377868वाई), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-377869एफ), 01 सितम्बर 2010
 नायब सूबेदार कन्हैया राम (जेसी-377870डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार मनोज कुमार चौबे (जेसी-377871वाई), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार समशेर सिंह (जेसी-377872एफ), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार के पी यादव (जेसी-377875पी), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-377876एक्स), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार मुन्ना सिंह परिहार (जेसी-377877ए), 03 अक्टूबर 2010
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)
 नायब सूबेदार जग रूप सिंह (जेसी-377878एच), 26 अक्टूबर 2010
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)
 नायब सूबेदार कुलवीर सिंह (जेसी-377879एल), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार एम पी सिंह (जेसी-377880ए), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार आर के सिंघा (जेसी-377881एच), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार मन्नीकन्टन पिल्लई जे (जेसी-377882एल), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार जोगा सिंह (जेसी-377883एन), 28 अक्टूबर 2010
 (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)
 नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-377884डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार प्रेमवीर सिंह (जेसी-377885वाई), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार सिद्धेश्वर एन सिंह (जेसी-377886एफ), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार आनंद कुमार सिंह (जेसी-377887के), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार गोलम अलमामुन (जेसी-377888एम), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार उत्पल कोनर (जेसी-377889पी), 01 अक्टूबर 2010
 नायब सूबेदार रति राम (जेसी-377890के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार कमल बहादुर प्रधान (जेसी-377891एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार मुख लाल सिंह (जेसी-377892पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार एस के देशमुख (जेसी-377893एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार जगन किशोर शर्मा (जेसी-377937के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार यू एच एन शंकरा रेड्डी (जेसी-377938एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जेसी-377939पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार रवीन्द्रन नायर जी (जेसी-377940के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार बी बी पाण्डेय (जेसी-377941एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार डी जुल्फीकरालि भुट्टो (जेसी-377942पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार रंजोध सिंह (जेसी-377943एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सुरेश सी एस (जेसी-377944ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार एम डी आमिर अली (जेसी-377945एच), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सुरजीत राम (जेसी-377946एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार के एच रामेन्द्र सिंघा (जेसी-377948डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार गणेश प्रसाद (जेसी-377949वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार गिरीश कुमार जे (जेसी-377950एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राजेश कुमार शर्मा (जेसी-377951डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार उमेश शर्मा (जेसी-377952वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह (जेसी-377954के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-377956पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार मुकेश कुमार शर्मा (जेसी-377957एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार नवीन कुमार वर्मा (जेसी-377958ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार मुकेश कुमार (जेसी-377959एच), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार चन्दन सिंह (जेसी-377960एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार महावीर सिंह (जेसी-377962एच), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार राम दत्त (जेसी-377963एल), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-377964एन), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार एच उमानंदा मिताई (जेसी-377968के), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रमेश चन्द्र (जेसी-378003वाई), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार शेर सिंह (जेसी-378004एफ), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार विरेश्वर मिश्रा (जेसी-378005के), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार श्याम सुन्दर (जेसी-378008एक्स), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रामाधर कैरि (जेसी-378009ए), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार विनोद कुमार (जेसी-378010पी), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार सत्यावीर (जेसी-378012ए), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार विपिन प्रकाश (जेसी-378013एच), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार जोगिन्द्र पाल (जेसी-378014एल), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रूप चन्द (जेसी-378015एन), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-378016डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार बब्बन यादव (जेसी-378017वाई), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार बृज लाल (जेसी-378019के), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जेसी-378020वाई), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार उन्नीकृष्णा कुरूप पी (जेसी-378021एफ), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार अश्वनी कुमार पाण्डेय (जेसी-378024पी), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार जे के पाण्डेय (जेसी-378025एक्स), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार शिवाजी (जेसी-378026ए), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार जयामोहना कुरूप एस (जेसी-378027एच), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जेसी-378089एच), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार के वी शिवा हनुमैअह (जेसी-378090एक्स), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार मनोज कुमार (जेसी-378091ए), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार साहिब सिंह (जेसी-378092एच), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-378093एल), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार दिवाकर पंत (जेसी-378094एन), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार श्यामा सिंह यादव (जेसी-378096वाई), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार श्रीकुमार आर (जेसी-378097एफ), 03 नवम्बर 2010

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार पी अरूण दास (जेसी-378098के), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार मोहन कुमार सिंह (जेसी-378099एम), 01 नवम्बर 2010

नायब सूबेदार विद्यानन्द सिंह (जेसी-378100डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2010

सूबेदार मेजर (व्यक्तिगत सहायक)

सूबेदार सेथु माधवन टी वी (जेसी-642630वाई), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार मेजर लिपिक (एम डी)

सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-641501एन), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार मेजर (एम टी)

सूबेदार सूबे सिंह (जेसी-663121एन), 14 सितम्बर 2010 *

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार सतीश कुमार (जेसी-663117एल), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार मेजर (एम टी)

सूबेदार जोगिंदर पाल (जेसी-663124एफ), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार (एम टी/स्पेशल)

नायब सूबेदार महेश कुमार (जेसी-664882एल), 04 अक्टूबर 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह राजगुरु (जेसी-664833एच), 23 अगस्त 2010 *

नायब सूबेदार नर्यान सिंह (जेसी-664834एल), 29 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार पात्रा (जेसी-664835एन), 24 सितम्बर 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय (जेसी-665044एच), 01 अक्टूबर 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2010 से दी जायेगी)

सूबेदार (एस के टी)

नायब सूबेदार अजीत सिंह (जेसी-663193एक्स), 26 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोपा कुमार बी (जेसी-662864के), 20 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 जून 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार मोरे संजय विठोबा (जेसी-662916पी), 01 अक्टूबर 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सी एच वी वी सत्यनारायणा (जेसी-663021एच), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार बिनोद कुमार सिंह (जेसी-663052एच), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार भगत सिंह (जेसी-663100एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार बृजेश बाबू (जेसी-663018एच), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार जोर्ज फिलीप (जेसी-663020ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार पवार शिबाजी बाबू राव (जेसी-663192पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सच्चिदानन्द तिवारी (जेसी-663099एन), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार (व्यक्तिगत सहायक)

नायब सूबेदार राम कुमार सिंह महला (जेसी-664549एम), 09 अगस्त 2010 *

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार अनिल मौहंती (जेसी-664550एफ), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार डाल चन्द (जेसी-664551के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राजीव कुमार सिंह चौहान (जेसी-664552एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राजेंद्र कुमार अवाले (जेसी-664553पी), 01 अक्टूबर 2010

सूबेदार लिपिक (एस डी)

नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार (जेसी-643213वाई), 25 सितम्बर 2010*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 22 जून 2010 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रदिप्ता कुमार गौडा (जेसी-664532वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार संजय कुमार मंडल (जेसी-664569ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार धन राज (जेसी-664570पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार जालिम सिंह (जेसी-664572ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार तप नारायण पांडेय (जेसी-664573एच), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार रबिंद्र कुमार ओझा (जेसी-664574एल), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार भीष्मदेव हाजरा (जेसी-664575एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार अकुल चंद्रा मंडल (जेसी-664577वाई), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार उपेंद्र सिंह (जेसी-664598पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राम कुमार वर्मा (जेसी-664646के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार राम सुमिरन (जेसी-664647एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार समर घोष (जेसी-664648पी), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार नरेश कुमार (जेसी-664649एक्स), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार महेश चंद्रा (जेसी-664650एम), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार लिपिक (एस डी)

हवलदार राज पाल सैनी (सं. 6383333एम अब जेसी-667438ए), 01 सितम्बर 2010

हवलदार उपेंद्रा कुमार बेहरा (सं. 6383205पी अब जेसी-667439एच), 05 अक्टूबर 2010*

हवलदार दीपक कुमार दास (सं. 6380027एक्स अब जेसी-667440एक्स), 04 अक्टूबर 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 सितम्बर 2010 से दी जायेगी)

तोपखाना अभिलेख

सब्सटेंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार रत्ती राम यादव (जेसी-270328एच), 23 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार शैलेन्द्र सिंह (जेसी-270280ए), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-270034पी), 29 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द पंत (जेसी-270202एच), 05 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार राजबीर (जेसी-270640एल), 11 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार महेश सिंह (जेसी-270919के), 20 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार प्रेमन टी पी (जेसी-271057एच), 29 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार हरी कृष्णन बेलवाल (जेसी-272421एच), 05 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार राम पुकार मिश्रा (जेसी-271732के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जेसी-271377एक्स), 01 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार रत्नाकर पाण्डेय (जेसी-271411एम), 02 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार रूप सिंह (जेसी-271505के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार नागेन्द्र सिंह (जेसी-271646वाई), 12 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार धनी राम (जेसी-271710एल), 09 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार हरमेश सिंह (जेसी-271926एम), 04 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार भारत हाण्डीक (जेसी-272169पी), 27 नवम्बर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-272511के), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार दिनेश यादव (जेसी-272706पी), 23 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार पी सग्यानाथन (जेसी-272625पी), 13 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार शांती कुमार (जेसी-272857एन), 01 अक्टूबर 2010

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-273154वाई), 29 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार दलवी गोपीनाथ तातेराव (जेसी-273866एफ), 08 अक्टूबर 2010/01 अक्टूबर 2010*

नायब सूबेदार भाग्या हेमंत भिका लाल (जेसी-269250डब्ल्यू), 28 जून 2010/12 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार असिम कुमार बिश्वास (जेसी-272999एल), 02 अक्टूबर 2010/30 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार दिनेश राय (जेसी-271887वाई), 25 अगस्त 2010/30 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार लाहोरी राम (जेसी-272387एन), 03 अगस्त 2010/30 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार विपन कुमार (जेसी-271957एम), 26 अगस्त 2010/30 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार नागाप्पा मुगड (जेसी-270677एम), 02 अगस्त 2010/01 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार काकडे नामदेव बापुराव (जेसी-269366एम), 27 अगस्त 2010/12 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार चन्दन सिंह कन्डारी (जेसी-269795एन), 15 सितम्बर 2010/05 जून 2010*

नायब सूबेदार रामानन्द (जेसी-273271के), 05 अगस्त 2010/01 जून 2010*

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-270055एल), 16 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010*

(*ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार बचीतर सिंह (जेसी-272408वाई), 19 अक्टूबर 2010/17 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार हुले आनंद गंगाराम (जेसी-270594एफ), 01 अक्टूबर 2010/27 जुलाई 2010*

नायब सूबेदार रनजीत कुमार सिंहा (जेसी-269568एन), 06 सितम्बर 2010/01 जुलाई 2010*

नायब सूबेदार लाल बाबू राय (जेसी-273904एम), 24 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार बैजु जे (जेसी-271610ए), 20 सितम्बर 2010/30 अप्रैल 2010*

नायब सूबेदार गोविन्दजी पाण्डेय (जेसी-274349डब्ल्यू), 29 सितम्बर 2010/16 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार अर्जुन भांगी (जेसी-274588एल), 01 अक्टूबर 2010/17 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार वी गोविन्दा राजु (जेसी-269902के), 18 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार चन्द्रेश्वर सिंह (जेसी-269653डब्ल्यू), 10 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार मुकेश कुमार (जेसी-270497के), 25 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार गजे सिंह (जेसी-270473ए), 07 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार रमेश सिंह (जेसी-270535पी), 28 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार रवीन्द्र सिंह (जेसी-270896एन), 09 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार दलित कुमार (जेसी-270780एक्स), 30 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह (जेसी-271793एफ), 24 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार बसय्या पुजार (जेसी-272117वाई), 10 सितम्बर 2010/02 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार देवराज (जेसी-271157एन), 01 नवम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार आर राजा पाण्डी (जेसी-271355वाई), 10 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार गुरुबचन सिंह (जेसी-271134एम), 27 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार विजय सिंह (जेसी-272109ए), 15 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार सुमेर सिंह काटेवा (जेसी-271525एक्स), 01 सितम्बर 2010

नायब सूबेदार राम किशोर शर्मा (जेसी-271813के), 17 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह (जेसी-272084वाई), 19 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार सुरीन्द्र पॉल सिंह (जेसी-272135एफ), 03 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार राज कुमार (जेसी-272207ए), 15 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार टी पाप्पयन (जेसी-272065एन), 13 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार विजय कुमार श्रीवास्तव (जेसी-272311एन), 09 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

नायब सूबेदार उपेन्द्रा कुमार सिंह (जेसी-273022एल), 20 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*

- नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-272487वाई), 06 अक्टूबर 2010/01 सितम्बर 2010*
- नायब सूबेदार धारा सिंह (जेसी-272578एच), 21 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*
- नायब सूबेदार एम डी कलामुद्दीन (जेसी-273204एल), 19 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010*
- नायब सूबेदार चामन लाल (जेसी-273685डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2010/01 अगस्त 2010*
- नायब सूबेदार कुंवर बहादुर सिंह (जेसी-269047ए), 22 जुलाई 2010/01 जनवरी 2010*
- नायब सूबेदार जसवीर सिंह (जेसी-270085एच), 27 जुलाई 2010/06 मार्च 2010*
- नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-270259एक्स), 27 अगस्त 2010/07 मार्च 2010*
- नायब सूबेदार सुभाष चन्द (जेसी-268382एक्स), 04 जून 2010/12 अप्रैल 2010*
- नायब सूबेदार अमर सिंह (जेसी-272251के), 05 जुलाई 2010/30 अप्रैल 2010*
- नायब सूबेदार त्रिशपाल सिंह तोमर (जेसी-272427के), 07 सितम्बर 2010/30 अप्रैल 2010*
- नायब सूबेदार पाना राम (जेसी-272358वाई), 03 अगस्त 2010/30 अप्रैल 2010*
- नायब सूबेदार पारेन डेका (जेसी-272260एल), 17 जुलाई 2010/30 अप्रैल 2010*
- नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-272827डब्ल्यू), 18 अगस्त 2010/30 अप्रैल 2010*
- नायब सूबेदार रूप सिंह (जेसी-271588ए), 19 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार किशन पाल सिंह (जेसी-271323डब्ल्यू), 29 सितम्बर 2010/01 जून 2010*
- नायब सूबेदार रामानुज शर्मा (जेसी-271200के), 02 सितम्बर 2010/01 जून 2010*
- नायब सूबेदार प्रभा ए के (जेसी-271221ए), 29 सितम्बर 2010/01 जून 2010*
- नायब सूबेदार भिन्दर कुमार (जेसी-271876एम), 14 अगस्त 2010/01 जून 2010*
- नायब सूबेदार प्रेम कुमार सिंह (जेसी-268990वाई), 15 सितम्बर 2010/05 जून 2010*
- नायब सूबेदार जोगिन्दर लाल (जेसी-269514एम), 15 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार आनन्द कुमार (जेसी-269789ए), 14 सितम्बर 2010/01 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-270487ए), 16 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार चामन लाल (जेसी-271025ए), 08 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार बांदेकर दिनकर साबाजी (जेसी-270545वाई), 13 सितम्बर 2010/01 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जेसी-269588एफ), 20 अगस्त 2010/12 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार रामबीर सिंह (जेसी-270265एल), 06 सितम्बर 2010/31 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार राम प्रकाश पाल (जेसी-270309एक्स), 27 सितम्बर 2010/27 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार सत्याबीर सिंह (जेसी-269687के), 01 अक्टूबर 2010/01 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार देबा कुमार देहिगा (जेसी-270603एक्स), 01 जुलाई 2010/03 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार धन राज गुरंग (जेसी-270489एल), 01 जुलाई 2010/01 जून 2010*
- नायब सूबेदार हरी ओम (जेसी-271734पी), 12 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*
- नायब सूबेदार निम्बालकर गणपती शंकर (जेसी-271205एच), 13 दिसम्बर 2009/01 अक्टूबर 2009*
- नायब सूबेदार बीरेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-270128एम), 18 जनवरी 2010/21 दिसम्बर 2009*
- नायब सूबेदार भगवान दास (जेसी-270454पी), 21 जनवरी 2010/01 जनवरी 2010*
- नायब सूबेदार चन्द्राशेखरन के पी (जेसी-271214के), 19 फरवरी 2010/01 जनवरी 2010*
- नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-269299एम), 26 मार्च 2010/01 जनवरी 2010*
- नायब सूबेदार सुब्रामणि जी (जेसी-269599एन), 03 नवम्बर 2010/01 अगस्त 2010*
- नायब सूबेदार यश पॉल (जेसी-270403एफ), 01 अगस्त 2010
- नायब सूबेदार एस चेल्लाथुराय (जेसी-270646एम), 09 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार चन्द्र माल्ला जार्ज (जेसी-270833एल), 02 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार लालन कुमार विशोनाथ राय (जेसी-271002वाई), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार लाल बहादुर यादव (जेसी-271650एफ), 25 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-271944पी), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार भंवर सिंह कनावत (जेसी-272006एफ), 04 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार आर रवी (जेसी-272101एन), 19 अक्टूबर 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जेसी-272389वाई), 23 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार दिनेश कुमार कराडे (जेसी-272649वाई), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार मान सिंह (जेसी-272348पी), 02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार जोसेफ जेम्स डिसोजा (जेसी-272624एम), 09 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार श्री निवास शाह (जेसी-272638एम), 01 अगस्त 2010

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र यादव (जेसी-273003ए), 16 सितम्बर 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार बिनू एस (जेसी-273242पी), 19 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार मनफूल सिंह (जेसी-273731ए), 01 सितम्बर 2010/02 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार श्री कुमार डी (जेसी-272383एक्स), 30 अगस्त 2010/05 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार किशोर कुमार रौत्रय (जेसी-273171वाई), 08 सितम्बर 2010/10 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार निहाल सिंह (जेसी-273604एल), 10 सितम्बर 2010/10 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार सन्तोष (जेसी-274372के), 04 अक्टूबर 2010/10 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार मनोज कुमार (जेसी-274556एच), 04 अक्टूबर 2010/10 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार अभिमन्यु कुमार सिंह (जेसी-272331एफ), 05 अक्टूबर 2010/14 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार पाण्डेय (जेसी-271837एन), 12 अक्टूबर 2010/16 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार जसविन्दर सिंह (जेसी-269962वाई), 28 अक्टूबर 2010/19 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार जगबीर सिंह (जेसी-272705एम), 01 अक्टूबर 2010/20 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार सतनाम सिंह (जेसी-272793एन), 06 नवम्बर 2010/23 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार बिष्णु चरन साहू (जेसी-273791पी), 15 अक्टूबर 2010/28 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार सत्येन्द्रा कुमार (जेसी-273119डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2010/30 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार राज बहादुर सिंह (जेसी-271499एफ), 01 नवम्बर 2010/31 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार मानिक चन्द्र खान (जेसी-271564डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2010/31 अगस्त 2010*

नायब सूबेदार मोहम्मद समीम अहमद (जेसी-261856वाई), 06 अक्टूबर 2010/31 अगस्त 2010*

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार अब्दुल मजीद अहमद (सं. 15116180वाई अब जेसी-275361के), 21 जून 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार जगदीश सिंह तनवर (सं. 14397333एच अब जेसी-275362एम), 17 जून 2010/30 अप्रैल 2010*

हवलदार राम चंद्र (सं. 15119047एफ अब जेसी-275363पी), 10 मई 2010/01 मई 2010*

हवलदार कुलवंत सिंह (सं. 15120060एक्स अब जेसी-275364एक्स), 13 मई 2010/01 मई 2010*

हवलदार पी इरुदया राज (सं. 14411026वाई अब जेसी-275365ए), 28 जुलाई 2010/01 मई 2010*

हवलदार कुलबीर सिंह (सं. 15109467एन अब जेसी-275366एच), 16 अगस्त 2010/09 मई 2010*

हवलदार जी एडविन माइकल (सं. 14401614एम अब जेसी-275367एल), 10 जून 2010/01 जून 2010*

हवलदार बलवान सिंह (सं. 15109195वाई अब जेसी-275368एन), 23 जून 2010/01 जून 2010*

हवलदार कदम राजकुमार धोंदीराम (सं. 14411283डब्ल्यू अब जेसी-275369डब्ल्यू), 12 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार मोरे सम्भाजी अप्पाराओ (सं. 15111545वाई अब जेसी-275370एल), 05 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार उगम सिंह (सं. 15114100एक्स अब जेसी-275371एन),
03 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार जितेंद्र कुमार (सं. 15126047के अब जेसी-275372डब्ल्यू),
02 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार करमबीर (सं. 14406295एफ अब जेसी-275373वाई),
01 अगस्त 2010

हवलदार मौजी राम (सं. 15110522एल अब जेसी-275374एफ),
06 जुलाई 2010/25 नवम्बर 2009*

हवलदार सदाशिव जाधव (सं. 14414230एच अब जेसी-275375के),
09 अप्रैल 2010/30 नवम्बर 2010*

हवलदार चंदीरन पी (सं. 15114532एम अब जेसी-275376एम),
03 मार्च 2010/01 जनवरी 2010*

हवलदार रंजीत सिंह ग्रेवाल (सं. 14404406पी अब
जेसी-275377पी), 03 जुलाई 2010/06 मार्च 2010*

हवलदार सुभासिस बेरा (सं. 14416614डब्ल्यू अब
जेसी-275378एक्स), 15 अगस्त 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार हदीप सिंह (सं. 15109169एक्स अब जेसी-275379ए),
28 जुलाई 2010/30 अप्रैल 2010*

हवलदार दारेकर संतोष मोहन राव (सं. 15120765के अब
जेसी-275380पी), 03 अगस्त 2010/04 मई 2010*

हवलदार श्रीनिवासा राव ओर्चू (सं. 15120921एच अब जेसी-275381एक्स),
05 अगस्त 2010/01 जून 2010*

हवलदार मदन मोहन सिंह (सं. 14391918ए अब जेसी-275382ए),
26 जुलाई 2010/01 जून 2010*

हवलदार जाधव प्रमोद चंद्रकांत (सं. 15122482एफ अब
जेसी-275383एच), 26 जुलाई 2010/01 जून 2010*

हवलदार सुबे सिंह (सं. 14393307के अब जेसी-275384एल),
04 जुलाई 2010/04 जून 2010*

हवलदार महेश चंद्र (सं. 14401539ए अब जेसी-275385एन),
04 अगस्त 2010/26 जून 2010*

हवलदार लखन लाल (सं. 15115687एन अब जेसी-275386डब्ल्यू),
12 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार रोशन लाल (सं. 14392381वाई अब जेसी-275387वाई),
09 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार अजय संदीप कुजूर (सं. 15138823एल अब
जेसी-275388एफ), 07 अगस्त 2010/16 जुलाई 2010*

हवलदार चाको के सी (सं. 14404811एम अब जेसी-275389के),
02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 15118511एन अब जेसी-275390वाई),
13 फरवरी 2010/01 अप्रैल 2010*

हवलदार पी समुधीरम (सं. 15110673के अब जेसी-275391एफ),
24 जुलाई 2010/30 नवम्बर 2009*

हवलदार सुर्या प्रसाद जलगदुगुला (सं. 15133618ए अब
जेसी-275392के), 28 जुलाई 2010/10 फरवरी 2010*

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

ए वी बागुर
अवर सचिव

थल सेना विभाग (एम जी ओ) ई एम ई कार्मिक

सं. 143, दिनांक 24 फरवरी 2011---राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :--

सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

जितेंद्र कुमार (जेसी-759415वाई), 18 अगस्त 2010/01 अगस्त
2010*

प्रफूला कुमार साहू (जेसी-759588डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

उपेन्द्र कुमार दिवाकर (जेसी-759363एन), 05 सितम्बर 2010/
01 अगस्त 2010*

सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

माली हनमंत दत्तात्रेय (जेसी-763817एन), 21 अगस्त 2010/
01 अगस्त 2010*

सुखदेव (जेसी-763832एच), 01 सितम्बर 2010

कुन्दन सिंह (जेसी-763856एम), 01 सितम्बर 2010

पीरजादे अहमद पाशा ईमाम्दीन (जेसी-763829एच), 01 सितम्बर
2010

गेना राम (जेसी-763824के), 01 सितम्बर 2010

दबिन्दर सिंह (जेसी-763819), 25 सितम्बर 2010/01 सितम्बर
2010*

सूबेदार क्लर्क (एस डी) के रैंक में

तरापद परीडा (जेसी-760306वाई), 21 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010

नयकुदे दिलावर शमशेर (जेसी-760497वाई), 01 सितम्बर 2010

धरमबीर (जेसी-760380 ए), 01 सितम्बर 2010

हुक्मा राम मंडा (जेसी-760307 एफ), 01 सितम्बर 2010

चन्द्रा शेकरन एम (जेसी-760499 के), 01 सितम्बर 2010

रणवीर सिंह (जेसी-760379एल), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी) के रैंक में

रोहितास यादव (जेसी-756291 के), 01 सितम्बर 2010

हनामन्त गवाडे (जेसी-756177 एम), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

रघुनाथ ठाकुर (जेसी-762475 वाई), 01 सितम्बर 20

प्रीतम सिंह (जेसी-762476 एफ), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक सी व्हीकल के रैंक में

राम प्रकाश (जेसी-759523 एच), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में
ईल्लुमलाइ के (जेसी-759551 पी), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार टेक एस ए के रैंक में

किशन राम (जेसी-760374 एम), 01 सितम्बर 2010

स्वरूप चंद (जेसी-760376), 01 सितम्बर 2010

सुरेश (जेसी-760375 पी), 01 सितम्बर 2010

राजवीर सिंह (जेसी-760493एच), 01 सितम्बर 2010

श्याम बिहारी (जेसी-760491एक्स), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार एस के टी के रैंक में

राजेन्द्र बहादुर सिंह (जेसी-762811 ए), 01 सितम्बर 2010

देवेन्द्र कुमार (जेसी-762812 एच), 01 सितम्बर 2010

बसन्त कुमार स्वैन (जेसी-762813 एल), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार मास्टर टेक ए व्हीकल के रैंक में

बी सत्यानन्द पटनायक (जेसी-759422 पी), 01 सितम्बर 2010

महेश कुमार (जेसी-759423 एक्स), 01 सितम्बर 2010

श्रीकांत कलिता (जेसी-759421 एम), 01 सितम्बर 2010

निरंजन प्रसाद सिंह (जेसी-759430 एन) 01 सितम्बर 2010

सूबेदार वेल्डर के रैंक में

उमा शंकर सिंह (जेसी-760935डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

कुनवर सिंह (जेसी-760998वाई), 01 सितम्बर 2010

सूबेदार ए सी और आर एफ

सत्यपाल सिंह (जेसी-761274एन), 13 सितम्बर 2010/01 सितम्बर 2010*

सूबेदार मास्टर टेक ए वी एन (इलैक्ट)

प्रमोद कुमार शिशोदिया (जेसी-760644डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2010

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

हवलदार से नायब सूबेदार ए वी एन टेक (आई और पी)

क्षीरसागर काका साहेब (सं. 14590960डब्ल्यू अब जेसी-764652एम),
14 अगस्त 2010/01 फरवरी 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी

तुहीन कांति बिस्वास (सं. 14613169एफ अब जेसी-764692एन),
01 अप्रैल 2010

विक्रम सिंह (सं. 14613531के अब जेसी-765260एल), 01 अगस्त 2010

शांतनु राय (सं. 14613572एन अब जेसी-765263वाई), 01 अगस्त 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलैक्ट के रैंक में

राकेश कुमार (सं. 14623237एक्स अब जेसी-764703पी), 13 अगस्त 2010/01 मार्च 2010*

समीर घोष (सं. 14626444पी अब जेसी-765144एच), 21 अगस्त 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक एसए के रैंक में

सत्यवीर (सं. 14577049पी अब जेसी-764870एल), 01 अप्रैल 2010

तिलक राज (सं. 14595865एन अब जेसी-765282के), 01 अगस्त 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएफ (ए एफ)

कनिराजन एम (सं. 14615346पी अब जेसी-764884एल), 01 अप्रैल 2010

एस अभिलाश कुमार (सं. 14625769डब्ल्यू अब जेसी-764887वाई),
01 अप्रैल 2010

अभय सिंह (सं. 14634617डब्ल्यू अब जेसी-765202एफ),
07 अप्रैल 2010/01 अगस्त 2010*

रजत कुमार मंडल (सं. 14634718के अब जेसी-765203के),
09 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

सुशील कुमार (सं. 14635492डब्ल्यू अब जेसी-765204एम),
09 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएफ (इलैक्ट)

ओम प्रकाश सिंह (सं. 14609355ए अब जेसी-764904एन),
01 अप्रैल 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

राजेन्द्र नाथ जेना (सं. 14609471एच अब जेसी-764998डब्ल्यू),
01 जून 2010

बाला राज ए (सं. 14622630एन अब जेसी-765030एक्स),
19 जुलाई 2010/25 अप्रैल 2010*

केहर सिंह (सं. 1461340एन अब जेसी-765087एम), 03 सितम्बर 2010/01 जुलाई 2010*

ईगले शाहजी राम्लिंग (सं. 14619232एफ अब जेसी-765177एन),
02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

तपस के आर पात्रा (सं. 14619247के अब जेसी-765179वाई),
01 अगस्त 2010

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

जलालुद्दीन अंसारी (सं. 14582875वाई अब जेसी-765054एफ),
03 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कम्यूनिकेशन के रैंक में

विजय शंकर एन (सं. 14623166एफ अब जेसी-765137एम),
01 अगस्त 2010

जे दीनदयालन (सं. 14623641एम अब जेसी-765138पी),
01 अगस्त 2010

हवलदार से नायब सूबेदार टेक अप्टो इलैक्ट के रैंक में

बिष्णु कुमार (सं. 14578228एफ अब जेसी-765158एच),
07 जुलाई 2010/01 जुलाई 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

उपेन्द्र प्रसाद (सं. 14584841के अब जेसी-765191ए), 01 अगस्त
2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलैक्ट के रैंक में

किशोर चन्द्र नायक (सं. 14619734के अब जेसी-765198के),
05 अगस्त 2010/30 मई 2010*

शिव चंद (सं. 14614739वाई अब जेसी-765209एल), 01 अगस्त
2010

ऋपाल सिंह (सं. 14614933एन अब जेसी-765210ए), 04 अगस्त
2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक एवीएफ (एईएन)

नरेन्द्र कुमार भारती (सं. 14636174वाई अब जेसी-765201वाई),
03 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक नेट वर्किंग के रैंक में

परमार दिलीप कुमार (सं. 14616911एन अब जेसी-765207ए),
12 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी)
के रैंक में

सी धनपाल (सं. 14583168एफ अब जेसी-765233एफ), 03 अगस्त
2010/01 अगस्त 2010*

संजय प्रसाद (सं. 14583177एच अब जेसी-765235एम), 16 अगस्त
2010/01 अगस्त 2010*

भोम सिंह ईन्डा (सं. 14583422ए अब जेसी-765236पी),
20 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार आर्माइन्ट टेक (एएफवी/एडी) के रैंक में

शिव मूरत पाल (सं. 14573408ए अब जेसी-765239एच),
04 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क(एस डी) के रैंक में

अजय पाल सिंह (सं. 14587245एच अब जेसी-765246वाई),
01 अगस्त 2010

राज नारायण शर्मा (सं. 14587249वाई अब जेसी-765247एफ),
02 अगस्त 2010/01 अगस्त 2010*

अनिल कुमार गौतम (सं. 14587949एम अब जेसी-765250एफ),
01 अगस्त 2010

बाबू डैनियाल एम (सं. 14589862के अब जेसी-765253पी),
01 सितम्बर 2010

बसवाराज कोनी (सं. 14589675एल अब जेसी-765257एल),
01 सितम्बर 2010

*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

नंद किशोर कश्मीरा
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 144, दिनांक 25 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

एयर वाईस मार्शल के मूल रैंक में

एयर वाईस मार्शल एन एम वैष्णवी (सं. 14822) वै ई (एल),
18 अक्टूबर 2010 (काल्पनिक वरीयता--01 अप्रैल 2009)

(इनका नाम संयुक्त वरीयता सूची में ए वी एम ए. सिंघल (सं.
14615) वै ई (एल) तथा एवीएम के नारंग वै ई (एल के बीच
जाएगा)

प्रशासनिक शाखा

एयर कमोडोर के मूल रैंक में

एयर कमोडोर एस के चक्रवर्ती (सं. 15910) प्रशा, 28 जून 2010

एयर कमोडोर एच त्यागी (सं. 16099) प्रशा, 02 अगस्त 2010

ग्रुप कैप्टेन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टेन आर डी एस रावत (सं. 18313) प्रशा, 03 मई 2010

ग्रुप कैप्टेन ए के भटनागर (सं. 18319) प्रशा, 01 जून 2010

ग्रुप कैप्टेन पी के घोष (सं. 18324) प्रशा, 01 जुलाई 2010

मौसम विज्ञान शाखा

ग्रुप कैप्टेन के मूल रैंक में

ग्रुप कैप्टेन पी पी साठे (सं. 17583) मौ वि, 27 सितम्बर 2010
(कल्पित वरीयता 12 अप्रैल 2010)

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टेन के एस बाबू
(सं. 17588) मौ वि के नीचे एवं ग्रुप कैप्टेन एस. त्यागी
(सं. 18430) मौ वि के ऊपर आएगा)

ग्रुप कैप्टेन बी एस झा (सं. 18419) मौ वि, 04 अक्टूबर 2010
(कल्पित वरीयता, 14 जून 2010)

(संयुक्त वरीयता सूची में इनका नाम ग्रुप कैप्टेन एन शर्मा
(सं. 18421) मौ वि के नीचे एवं ग्रुप कैप्टेन जे के साहू
(सं. 18862) मौ वि के ऊपर आया)

(उड़ान शाखा)

ग्रुप कैप्टेन आर वैद्य (सं. 18798), उड़ान, 14 दिसम्बर 2009

ए के सिंह

उप निदेशक कार्मिक अधिकारी 2 (बी)

सेना शाखा

सं. 145, दिनांक 25 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
अधिकारी की दिनांक 25 जून 2008 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन
सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हो और थल सेना
अनुदेश 74/76 यथासंशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी
कमीशन प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

फ्लाईट लेफ्टि के पद पर

विनोद सी एन (सं. एमएस-15084डब्ल्यू अब एफ-28379एच)
एमआर-09046के, एएमसी, 17 मई 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 जून 2006 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की दिनांक 01 जुलाई
2009 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने
की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित
के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि के पद पर

मायंक नामदेव (सं. एमएस-15279एफ अब एमआर-09053ए),
एएमसी, 13 मार्च 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 फरवरी 2007 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से
है, रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टि के पद पर

शाजिया खाँ (सं. एमएस-15464पी अब 75941टी),
एमआर-09056एन, एएमसी, 22 जनवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से
है रद्द किया जाता है)

सर्जन सब लेफ्टि के पद पर (परख पर)

प्रियादर्शी पत्रा (सं. एमएस-15407एन अब 75932वाई),
एमआर-09059एफ, एएमसी, 12 अक्टूबर 2006

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 17 मई 2008 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है)

नताशा (सं. एमएस-14925एफ अब 75881एफ), एमआर-09050एम,
एएमसी, 21 फरवरी 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 28 मई 2007 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है,
रद्द किया जाता है)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर

माधुरी मट्ट (सं. एमआर-09051पी अब एमएस-15247वाई),
75923ए, एएमसी, 21 अप्रैल 2006

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 21 अप्रैल 2003 से दी जाएगी)

इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर आफ मेडीसन के लिए दी गई
36 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी
जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी।

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर 2007 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से
है रद्द किया जाता है)

विपिन कवात्र (सं. एमएस-15465एक्स अब 75942डब्ल्यू),
एमआर-09055एल, एएमसी, 22 जनवरी 2007

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 24 नवम्बर 2007 में प्रकाशित
रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से
है रद्द किया जाता है)

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक, स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 146, दिनांक 25 फरवरी 2011--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी
को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की
अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्त

लै कर्नल राज शुकला (टीए-42100), इन्फैंट्री, 30 सितम्बर 2010
(अप)

जय राज

उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th April 2011

D(MS)/SECTION

No. 129, dated 18th February 2011—The President of India has made the following appointment on her Honorary Personal Staff with effect from 01 January 2011 :—

Honorary Army ADC (Inf)

IC-25816 Lt Gen Bikram Singh, UYSM, AVSM, SM VSM

Vice IC-24584 Lt Gen BS Jaswal, PVSM, AVSM**, VSM (Retd)

R SUNDER
Under Secy

(ARMY BRAHCH)

No. 130, dated 18th February 2011—The President is pleased to make the following appointments under AI 4/2001 :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Captain on Probation

Patil Rohit Dinkar (VS-1158P), RVC, 23 Aug 2010

Raimon Mathew (VS-1159X), RVC, 23 Aug 2010

Sheetal Singh (VS-1160M), RVC, 23 Aug 2010

Ashish Kumar Singh (VS-1161P), RVC, 23 Aug 2010

Chandan Singh (VS-1162X), RVC, 23 Aug 2010

Prashant Chaudhary (VS-1163A), RVC, 23 Aug 2010

Kapil Nehra (VS-1164H), RVC, 23 Aug 2010

Sunil Kumar (VS-1165L), RVC, 23 Aug 2010

Aditya Sharma (VS-1166N), RVC, 23 Aug 2010

Harmanjeet Singh (VS-1167W), RVC, 23 Aug 2010

Dalbir Singh (VS-1168Y), RVC, 23 Aug 2010

Anshul Reothia (VS-1169F), RVC, 23 Aug 2010

Sudhir Karnal Sharma (VS-1170W), RVC, 23 Aug 2010

A V BAGUR
Under Secy

(ARMY BRAHCH)

No. 131, dated 18th February 2011—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

To be Fg Offr (on Prob)

Sourya Sourabh Mohakuda (MR-09010L), AMC, 15 Mar 2010

Saurav (MR-09034P), AMC, 15 Mar 2010

Tinku Antony (MR-09035X), AMC, 15 Mar 2010

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

(ARMY BRAHCH)

No. 132, dated 21st February 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Lts wef 12 Jun 2010

The undermentioned Gentlemen Cadets of 10+2 TES 15 Course are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 12 Jun 2010 under the provision of AI 3/99.

IC No., Name & Arms/Services

IC-72607H Dhirendra Singh Raghav, EME

IC-72608L Aarnav Bahuguna, Engrs

IC-72609N Sandeep Verma, Inf

IC-72610H Navjit Singh, EME

IC-72611L Shailesh Kumar Yadav, Sigs

IC-72612N Jitendra Singh Ramola, Engrs

IC-72613W Naveen Kumar, AAD

IC-72614Y Siddhartha Katiyar, Engrs

IC-72615F Sushil Kumar, AC

IC-72616K Sudeep Majumdar, Inf

IC-72617M Rakshit Sharma, EME

IC-72618P Chandan Kumar, EME

IC-72619X Raas Srivastava, Engrs

IC-72620M Indra Kumar Sahu, Sigs

IC-72621P Raunak Malik, Sigs

IC-72622X Chanchal Sharma, Inf

IC-72623A Lohit Ahom, Engrs

IC-72624H Uday Vir Singh, EME

IC-72625L Nimish Sambyal, Inf

IC-72626N Ravi Shanker Shukla, EME

IC-72627W Prakash Raikwar, Arty

IC-72628Y Sandeep Kumar, Engrs

IC-72629F Kulhriday Singh Bhalla, Sigs

IC-72630W Prashant Singh, Sigs

IC-72631Y Amar Nath Paul, Engrs

IC-72632F Sudesh Pratap Singh, EME

IC-72633K Varun Dixit, Arty
 IC-72634M Amit Dimri, Inf
 72635P P Arvind, Engrs
 72636X K Saravana Kumar, Sigs
 72637A Arupananda Sahoo, AVN
 72638H Amit Kumar, ASC
 72639L Mohit Malik, Engrs
 72640A D'Souza Allen Albert, Engrs
 72641H Vishal Sharma, Sigs
 72642L Kamal Jangid, Mech
 72643N Salabh Bhatnagar, Arty
 72644W Purushottam Kumar Rajneesh, Sigs
 72645Y Bhuwan Chandra Joshi, Engrs
 72646F Ashok Kumar Chhikara, Arty
 72647K Pankaj Kumar Tiwary, EME
 72648M Abhishek Shahrawat, EME
 72649P Deepak Chauhan, Sigs
 72650K Ashish Dwivedi, Sigs
 72651M Joydeep Chowdhury, Inf
 72652P Ghanekar Vishwajeet Shreeprakash, Sigs
 72653X Jatin Sharma, Inf
 72654A Harshit Chahar, ASC
 72655H S Vignesh, AOC
 72656L Raghav Pande, EME
 72657N Yashvir Singh, Inf
 72658W Jageshwar Gauniyal, Arty
 72659Y Ved Prakash, Sigs
 72660N Yashu Tripathi, EME
 72661W Gaurav Kumar, Sigs
 72662Y Rohit D Sapre, Engrs
 72663F Shambhu Kumar Singh, Int
 72664K Daly Francis, Engrs
 72665M Bibin N Bhuvanendran, Inf
 72666P Ankit Joon, EME
 72667X Chitresh Bisht, Engrs
 72668A Varun Singh, Engrs
 72669H Jai Singh Solanki, Inf
 72670X Chinmoy Nandan Ghosh, Engrs
 72671A Rameshkumar R, EME
 72672H Jadhav Dhiraj Bharat, Engrs
 72673L Pramod Kumar Tripathi, Engrs

72674N Dushyant Rathi, Sigs
 72675W Deepankan Sharma, AAD
 72676Y Moirangthem Phunilkanta Singh, Engrs
 72677F Mastanvali Shaik, EME
 72678K Amardeep Singh, EME
 72679M Bhartendra Kaushik, EME
 72680F Uprety Suryamadhur Deepchandra, Inf
 72681K Huidrom Niranjana Singh, Sigs
 72682M Prakhar Tripathi, AC

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 91 (Ninety One) Gentleman Cadets of 109 Technical Graduates Course (TGC) and 18 University Entry Scheme (UES) Course whose GC number is prefixed by 'T' (denoting TGC) or 'U' (denoting UES) are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 12 Jun 2010 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC) and AI 2/93, as amended (UES). They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Jun 2008 under SAI 1/S/94, as amended for GCs of TG Course and AI 2/93, as amended for GCs of UES Course :—

IMA No., Name, IC No. & Arm/Services
 U/1001 Amanat Jagjit Singh (72683P), AC
 T/6688 D Krishna Kumar (72684X), Engrs
 T/6686 Manikandan M (72685A), AC
 U/945 Waikar Anand Deepak (72686H), EME
 T/6679 Banahatti Karan Singh (72687L), Engrs
 T/6651 Rahul Dev A (72688N), Arty
 T/6662 Debmalya Mookherjee (72690L), Arty
 T/6684 Rishi R (72692W), Mech Inf
 U/969 Simant Kamal Dutta (72694F), AAD
 U/979 Jagadeesh Shetteppa Nandihal (72695K), Engrs
 U/944 Tilani Nimesh Chimanlal (72696M), Engrs
 T/6674 Atul Thapa (72697P), Sigs
 T/6676 Bhavya Singh Shishodia (72699A), EME
 U/952 Simrat Pal Singh Thind (72700K), EME
 T/6648 Anuj Singh Chauhan (72701M), Engrs
 T/6652 Simranjeet Singh (72703X), EME
 U/970 Rishabh Yadav (72704A), Sigs
 T/6660 Ranjodh Singh (72705H), AC
 T/6681 Nitesh Kumar Sangwan (72706L), AOC
 U/974 Karan Vasudev (72707N), Arty
 T/6647 Gaurav Mittal (72708W), Sigs
 U/996 Sanjeev Singh (72709Y), EME

T/6668 Raj Kumar (72711W) EME
 U/976 Ankit Singh Rawat (72712Y), EME
 U/978 M Deepak (72713F), EME
 U/1005 Birendra Singh (72714K), Engrs
 U/983 Harpreet Singh Liddar (72715M), Engrs
 U/986 Aditya Kaushik (72716P), Sigs
 T/6653 Ravi Jamwal (72717X), EME
 U/1019 Manjul Raj (72718A), Engrs
 U/1014 Sachin Dhiman (72720X), EME
 T/6633 Ravinder Singh Jodha (72721A), ASC
 U/961 Bibhuti Bhusan Borborua (72722H), Engrs
 T/6634 Ravindra Singh Mahla (72723L), Engrs
 T/6655 Udit Chaturvedi (72724N), Sigs
 T/6657 Durga Prasad Mishra (72725W), Sigs
 U/959 Satnam Singh (72726Y), Engrs
 T/6675 Abhinav Sharma (72727F), Engrs
 U/984 Pruno Robert (72728K), Engrs
 T/6682 Mohit (72730F), AOC
 U/992 Shailendra Saiwal (72731K), Sigs
 U/990 Rishabh Sood (72732M), Sigs
 U/991 Sankalp Dogra (72733P), Sigs
 U/1009 Abhinav Chauhan (72734X) Engrs
 T/6663 Dileep Singh Chahal (72735A), AC
 U/980 Vineeth S (72736H), Engrs
 U/960 Vikas Kumar Srivastava (72737L), Engrs
 U/999 Mayank Mathur (72738N), Engrs
 T/6636 Amit Kumar Jha (72739W), EME
 T/6642 Animesh Dubey (72740L), Sigs
 U/1015 Tapan Sodhi (72741N), EME
 T/6669 Sushant Dwivedi (72742W), Sigs
 T/6687 Deepak Bohra (72743Y), Mech Inf
 U/1018 Kumar Amit Yadav (72744F), Sigs
 U/954 Thimmaiah I B (72745K), Engrs
 U/995 Nagendra Pratap Singh (72746M), Engrs
 U/947 Amis Thampy John (72747P), EME
 T/6650 Harshvardhan Singh Salathia (72748X), Sigs
 U/953 Raghavendra Prasad G M (72749A), EME
 U/998 Syed Nazim Mehdi (72750P), AAD
 T/6637 Rohan Verma (72751X), Engrs
 T/6691 Saket Jha (72752A), Mech Inf
 U/987 Kuldeep Kumar (72753H), Engrs

T/6685 Ankush Sharma (72754L), AC
 U/914 Suchit Pandey (72756W), Engrs
 U/964 Jobin M Varghese (72757Y), Mech Inf
 T/6690 Bharat Mohan (72758F), Inf
 T/6639 Sachin Singh Rawat (72759K), ASC
 T/6649 Yashwant Suhag (72760Y), EME
 U/968 Abhay Kumar Singh (72761F), Sigs
 U/950 Kulkarni Shubham Deepak (72762K), Sigs
 U/982 Atul Parashar (72763M), Engrs
 U/985 Gaurav Kathait (72764P), Arty
 U/993 Shishir Makwana (72765X), Engrs
 U/1013 Navaneeth Gopinathan (72766A), EME
 T/6680 Abhas Sharma (72767H), EME
 T/6667 Depinder Dhanjal (72768L), Sigs
 U/1011 Jatin Kumar (72769N), Sigs
 U/957 Hari Shankar R Nair (72770H), Sigs
 T/6665 Abhay Sirohi (72771L), EME
 U/1000 Jerin Martin (72772N), AAD
 U/948 Kranthi Kanal (72773W), Arty
 U/1012 Shekhar Kumar (72774Y) Engrs
 T/6689 Yajuvendra Kumar Gautam (72775F), Engrs
 T/6646 Manish Makhiloga (72777M), AAD
 T/6644 Bhrugu Vyas Patro (72778P), ASC
 U/965 Abhimanyu Mahajan (72780M), EME
 U/962 Omkkar Uday Bhadbhade (72781P), Engrs
 U/1004 Arun Pundir (72782X), EME
 U/901 Gaurav Jain (72783A), Int
 U/924 Ankur Tyagi (72784H), EME

2. The following 02 (Two) Officers are also granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 12 Jun 2010 under the term and conditions of AI 105/61 :—

T/6638 Srinivasan Sundar Raj (72693Y), AEC
 T/6635 Sandeep Chand (72698X), MF

The undermentioned 03 (Three) Gentleman Cadet of 108 Technical Graduates Course who are granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 12 Dec 2009 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended. They are also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Dec 2007 under SAI 1/S/94, as amended :—

T/6625 Satyajeet Poddar (IC-72183X), Sigs with the seniority below T/6623 Alok Awasthi (IC-72182P) Sig, T/6601 Sunit Raj Choudhary (IC-72190N) Engrs with the seniority below U/859 Ram C (IC-72189Y), Engrs and T/

6607 Santosh Gangatharan (IC-72192Y), Sigs with the seniority below T/6627 G Yogendra Kumar Reddy (72191W), EME, whose names have been published in the Gazette of India dated 31 July 2010

SHORT SERVICE COMMISSION (On Probation)

The undermentioned 03 (Three) GCs of 108 Technical Graduates Course are granted Short Service Commission (on probation) for the period of their training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against their names under the provisions of SAI 1/S/94, as amended :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service and Date of SSC on Probation

108 Technical Graduates Course

T/6601 Sunit Raj Choudhary (43798A), Sigs, 14 Jan 2009

T/6607 Santosh Gangatharan (43804H), Sigs, 14 Jan 2009

T/6625 Satyajeet Poddar (43820A), Sigs, 14 Jan 2009

RAHUL SHARMA
Lt Col
AMS-8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 133, dated 21st February 2011—The President is pleased to make the following appointments :—

The undermentioned individual(s) to be temporary Scientist(s) 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (Pay Band-3) + Grade Pay Rs. 5,400/- :—

PIN No., Name, Estt./Lab and Date of Joining

2008AB1009 Shri M Saravana Kumar Reddy ADE, Bangalore, 21 May 2008

2008AB1540 Shri Tarun Gupta, ADE, Bangalore, 03 Dec 2008

2007AB1061 Shri Akilan J, ADE, Bangalore, 14 Nov 2007

2008AB1304 Shri Saurabh Singh, ADRDE, Agra, 21 May 2008

2010AB1084 Shri Abhinav, ADRDE, Agra, 19 May 2010

2009AB1031 Shri Bachau Prasad, ANURAG, Hyderabad, 03 Jun 2009

2008AB1055 Shri Ajay Kumar Meena, ARDE, Pune, 21 May 2008

2008AB1638 Shri Majji DV Hari Kishore, ASL, Hyderabad, 24 Sep 2008

2009AB1491 Shri Dev Kumar Yadav, DFRL, Mysore, 09 Apr 2009

2008AB1261 Ms Neha Bhandari, DL, Jodhpur, 22 May 2008

2010AB1018 Ms Ankita Agarwal, DL, Jodhpur, 19 May 2010

2008AB1301 Shri Ashok Kumar Ahirwar, DLRL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1322 Shri Paramanand Bairwa, DMRL, Hyderabad, 21 May 2008

2008AB1635 Smt Bhadramma Gogulotu, DRDL, Hyderabad, 16 Oct 2008

2010AB1054 Shri Ram B Sankar, DRDL, Hyderabad, 19 May 2010

2007AB1106 Shri Ashok Kumar RG, DRDL, Hyderabad, 14 Nov 2007

2009AB1386 Shri Jivan Kumar, GTRE, Bangalore, 03 Jun 2009

2010AB1164 Shri S Suresh Babu, GTRE, Bangalore, 19 May 2010

2010AB1207 Shri Jayesh Upadhyay, HEMRL, Pune, 03 Sep 2010

2008AB1118 Shri Ashish Kumar, IRDE, Dehradun, 21 May 2008

2008AB1003 Shri Sundeep Saggu, ISSA, Delhi, 21 May 2008

2009AB1367 Shri Soumitra Ray, ITR, Balasore, 03 Jul 2009

2010AB1140 Shri Soumya Ranjan Pradhan, ITR, Balasore, 19 May 2010

2010AB1031 Shri Ramesh Kumar Patel, ITR, Balasore, 19 May 2010

2010AB1056 Shri Naga Sreenivasu Rongala, LRDE, Bangalore, 19 May 2010

2010AB1122 Shri Sreejith CA, LRDE, Bangalore, 19 May 2010

2008AB1210 Shri Ganalekshmi GP, NPOL, Kochi, 21 May 2008

2010AB1135 Shri Vinothkrishnan V, NPOL, Kochi, 19 May 2010

2009AB1411 Shri Shankar Kalletta, NMRL, Ambarnath, 03 Jun 2009

2010AB1014 Shri Vishal Vijay Dalvi, NMRL, Ambarnath, 19 May 2010

2005AB1483 Shri Srikanth Kota, NSTL, Vishakhapatnam, 14 Apr 2005

2009AB1027 Shri Suri Babu Korda, NSTL, Vishakhapatnam, 03 Jun 2009

2010AB1049 Shri Arvind Sastry Mantha, NSTL, Vishakhapatnam, 19 May 2010

2008AB1404 Ms Smrutisudha Sahoo, PXE, Balasore,
21 May 2008

2008AB1597 Shri Karunakar Bandha, PXE, Balasore,
03 Dec 2008

2008AB1314 Shri KN Vamsi Krishna, RCI, Hyderabad,
21 May 2008

2009AB1041 Shri Ghanshyam Meena, RCI, Hyderabad,
03 Jun 2009

2007AB1131 Shri Ramarao K, RCI, Hyderabad, 23 May
2007

2010AB1144 Shri Raghavendra K, RCI, Hyderabad,
19 May 2010

2010AB1036 Shri Anil Kumar Vishwakarma, RCI (Proj-
Ad), Hyderabad, 19 May 2010

2008AB1620 Shri Rakesh Meena, R&DE (E), Pune,
03 Dec 2008

2009AB1014 Shri Manish Kumar Sah, SPIC, Delhi,
03 Jun 2009

2009AB1147 Shri SK Naik, SPIC, Delhi, 03 Jun 2009

2008AB1359 Shri Kawaldhari Bhaskar, SPIC, Delhi,
21 May 2008

2008AB1546 Ms Samina Siddiqui, SSPL, Delhi, 03 Dec
2008

2010AB1208 Shri Deepak Sehgal, TBRL, Chandigarh,
16 Aug 2010

2008AB1398 Shri Sudhakar Dharma Patil, VRDE,
Ahmednagar, 19 Aug 2008

2008AB1562 Shri Mohammad Isar Afzal, VRDE,
Ahmednagar, 03 Dec 2008

2010AB1138 Shri VSP Chaitanya Borra, VRDE,
Ahmednagar, 19 May 2010

V P PANDE
Associate Dir

ARMY BRANCH

No. 134, dated 21st February 2011—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

Gp Cap (& Equivalent) to be Air Cmde (& Equivalent)

A K Patra (MR-05091Y) (30703), 17 Sep 2009

Ajoy Mahen (MR-04054Y) (30706), 05 Oct 2009 with
notional seniority without effect on pay & pension from
22 Sep 2009

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS(HR)

ARMY BRANCH

No. 135, dated 22nd February 2011—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Subs Col (By Selection)

Pers No., Name, Arm and Subs Date

(IC-49841) A Sharma, EME, 14 Mar 2010 but seniority
wef 10 Jan 2008 without effect on pay & pension

T K DAS
Dy Dir
MS-8A

ARMY BRANCH

No. 136, dated 22nd February 2011—The President is
pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt Abhijit De TA(M)-1205, (AMC-TA), 04 Feb 2008

Capt A K Pathak TA(M)-1221, (AMC-TA), 24 Sep 2008

JAI RAJ
Dy Secy

ARMY BRANCH

No. 137, dated 22nd February 2011—The President is
pleased to make the following promotions wef the date shown
against their names :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi-Subs Maj

VS-1103L Capt Sudheesh S Nair, RVC, 20 Dec 2008

VS-1114X Capt Anish Antony, RVC, 20 Dec 2008

VS-1116H Capt Doddappa Hugar, RVC, 20 Dec 2008

VS-1108K Capt S Subeesh, RVC, 20 Dec 2009

VS-1110F Capt Navneet Joshi, RVC, 20 Dec 2009

VS-1115A Capt Deepak EV, RVC, 20 Dec 2008

A V BAGUR
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 138, dated 23rd February 2011—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

IC No., Name & Arm

(IC-66505) Pisal Abhay Vijaysinh, EME

(IC-66506) Suchindra Dwivedee, EME
 (IC-66509) Manjunath R, Sigs
 (IC-66510) Sarabjot Singh Sohi, EME
 (IC-66513) Gagandeep Kumar, Sigs
 (IC-66516) Vivek Bindra, Engrs
 (IC-66517) Baljeet Singh, Sigs
 (IC-66518) Tahir Mustafa, Engrs
 (IC-66520) Deepak Verma, EME
 (IC-66521) Parveen Dogra, Sigs
 (IC-66522) Gagandeep Singh, Sigs
 (IC-66527) G Anand, Sigs
 (IC-66530) Torgal Sanjeev Laxman, EME
 (IC-66532) Choudhari Jayant Bhagawan, Engrs
 (IC-66533) Safal Kumar Jha, Engrs
 (IC-66534) Prashant Trivedi, Sigs

—17 Oct 2009

RAHUL SHARMA
 Lt Col
 AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 139, dated 23rd February 2011—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC Officers with effect from the date mentioned against him/her :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Surg Lt Cdr

Rani Malik (MR-08973L) (75929R), AMC, 22 Sep 2010
 Madhuri Matta (MR-09051P) (MS-15247Y) (75923A), AMC, 21 Apr 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 09 Feb 2008 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

Natasha (MS-14925F) (75881F) (MR-09050M), AMC, 27 Dec 2009

To be Surg Lt

Natasha (MS-14925F) (75881F) (MR-09050M), AMC, 27 Dec 2005, on Completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 27 Dec 2008 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

Priyadarshree Patra (MS-15407N) (75932Y) (MR-09059F), AMC, 31 Aug 2007, on Completion of Internship

(MoD Notification published in Gazette of India dated 27 Dec 2008 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

Jebin Joseph (MR-08929F) (76031Y), AMC, 10 Aug 2010

To be Capt

Mayank Namdeo (MS-15279F) (MR-09053A), AMC, 20 Feb 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled)

Capt Gurpreet Kaur (MR-08831N), 11 Feb 2010

Capt Behera Mahesh (MR-08839A), 11 Feb 2010

Capt Adil Ashraf (MR-08850Y), 11 Feb 2010

Capt Harpreet Singh Dhillon (MR-08858L), 11 Feb 2010

Capt Anjani Kumar (MR-08890A), 11 Feb 2010

YASH PANDEY

Brig

Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 140, dated 23rd February 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

SL No., Name & Arm/Service

(SL-04987) Raj Kumar Chauhan, AEE B/R & ASW

(SL-04994) Sunil ML, Education Officer

(SL-05000) Akshaya Kumar Rout, ICO

—13 Aug 2010

RAHUL SHARMA

Lt Col

AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 141, dated 24th February 2011—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Capt

Lt Karan Singh Rajput, (TA-42669) Inf, 23 Oct 2010

Lt Ashwani Bhuria, (TA-42670) Inf, 04 Nov 2010

Lt Raj Kumar Sharma, (TA-42671) Inf, 21 Oct 2010

Lt Ramchandra Singh Nagarkoti, (TA-42675) Inf, 27 Nov 2010

Lt Vikram Singh, (TA-42676) Inf, 14 Nov 2010

Lt Gaurav Chauhan, (TA-42677) Inf, 31 Oct 2010

JAI RAJ
Dy Secy.

ARMY BRANCH

No. 142, dated 24th February 2011—The President is pleased to make the following promotion/appointments :—

REGULAR ARMY

CORPS OF SIGNALS

To be Subs Sub Maj (Y of S)

Sub Mohan Lal (JC-370182P), 01 Nov 2010

To be Subs Sub Maj (F of S)

Sub Akhilesh Kumar Singh (JC-369031K), 01 Oct 2010

Sub D Siriya Durai (JC-369034X), 01 Nov 2010

Sub Kehar Chand (JC-368566L), 01 Nov 2010

To be Subs Sub Maj (Op Cipher)

Sub Kartar Singh (JC-373338M), 01 Nov 2010

To be Subs Sub Maj (Clk/SD)

Sub D S Shegokar (JC-371005H), 01 Nov 2010

Sub Jagdish Chander (JC-371147Y), 01 Nov 2010

Sub Shambu Nath Khajuria (JC-371148F), 01 Nov 2010

To be Subs Sub Maj (GD)

Sub Vishwa Nath Singh (JC-372713A), 01 Aug 2010

Sub Babu Lal (JC-372855X), 01 Nov 2010

Sub Prem Singh (JC-372856A), 01 Nov 2010

Sub Tirath Singh Rawat (JC-372863W), 01 Dec 2010

Sub DS Narayana Raju (JC-372977F), 03 Dec 2010

(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Dec 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Suresh Kumar Baghel (JC-372978K), 01 Dec 2010

To be Subs Sub (GD)

Nb Sub Pandappa (JC-376315W), 01 Nov 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kaushal Kumar Singh (JC-376848Y), 01 Sep 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anil Kumar Tiwari (JC-376918M), 01 Aug 2009

Nb Sub VSP Singh (JC-377069H), 01 Nov 2009

Nb Sub Mahesh Prasad Singh (JC-377263X), 01 Feb 2010

Nb Sub Dharam Vir (JC-377413H), 08 May 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Basanta Kumar Santi (JC-377414L), 05 Apr 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Raghunath Singh (JC-377428L), 01 Apr 2010

Nb Sub RK Tripathi (JC-377510A), 02 Apr 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Hari Om (JC-377521M), 01 Apr 2010

Nb Sub Patitapaban Sahoo (JC-377589N), 05 May 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Paltan Prasad (JC-377600F), 01 May 2010

Nb Sub Mahabir Singh (JC-377615K), 01 May 2010

Nb Sub Bikram Singh (JC-377618X), 01 May 2010

Nb Sub DP Mishra (JC-377621X), 11 May 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Baij Nath (JC-377652X), 01 Jul 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Narwinder Singh (JC-377734A), 02 Jul 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Shyam Sunder Sharma (JC-377735H), 01 Jul 2010

Nb Sub MS Yadav (JC-377737N), 13 Jul 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Virender Singh (JC-376400Y), 02 Jul 2010

Nb Sub Mahendra Kumar (JC-376472H), 02 Jul 2010

Nb Sub Rajender Singh (JC-376858H), 02 Jul 2010

Nb Sub Debasis Sarkar (JC-378725L), 02 Jul 2010

Nb Sub Malikhan Singh (JC-377063F), 02 Jul 2010

Nb Sub Deepak Chander (JC-378727W), 02 Jul 2010

Nb Sub Mahender Singh Karki (JC-377241Y), 02 Jul 2010

Nb Sub M Murugan (JC-377269Y), 02 Jul 2010

Nb Sub Babu PM (JC-378147F), 15 Jul 2010

(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gyan Singh (JC-378369W), 02 Jul 2010

- Nb Sub Karnail Singh (JC-377349W), 02 Jul 2010
- Nb Sub Jitender Singh Rawat (JC-377423M), 08 Jul 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Jul 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Munna Lal (JC-377404F), 02 Jul 2010
- Nb Sub BL Singh (JC-377503K), 02 Jul 2010
- Nb Sub Dharamvir (JC-377519P), 02 Jul 2010
- Nb Sub Niyaz Khan (JC-377526L), 02 Jul 2010
- Nb Sub SM Shamrao (JC-377593W), 02 Jul 2010
- Nb Sub Raj Pal Singh (JC-377607L), 02 Jul 2010
- Nb Sub Sarath Chandran PS (JC-378200F), 02 Jul 2010
- Nb Sub Jitendra Bahadur Singh (JC-378031L), 10 Jul 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 02 Jul 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub P Moorthy (JC-377654H), 02 Jul 2010
- Nb Sub Suresh Kumar (JC-377659F), 02 Jul 2010
- Nb Sub Har Bhagwan (JC-377660W), 01 Aug 2010
- Nb Sub Om Prakash Pandey (JC-377662F), 14 Aug 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Ashok Kumar (JC-377664M), 01 Aug 2010
- Nb Sub Vijai Singh (JC-377681M), 01 Aug 2010
- Nb Sub PC Singh (JC-377738W), 13 Aug 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Baldev Singh (JC-377739Y), 01 Aug 2010
- Nb Sub Madhavan D (JC-377741W), 01 Aug 2010
- Nb Sub Pacha Anand (JC-377743F), 01 Aug 2010
- Nb Sub G Palanivel (JC-377744K), 09 Aug 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Devi Singh (JC-377745M), 01 Aug 2010
- Nb Sub G Selva Narayanan (JC-377746P), 01 Aug 2010
- Nb Sub Raju B (JC-377747X), 01 Aug 2010
- Nb Sub Sawant Singh (JC-377748A), 01 Aug 2010
- Nb Sub Shakti Singh (JC-378739L), 01 Aug 2010
- Nb Sub Sambhu Sah (JC-377749H), 01 Aug 2010
- Nb Sub Rajendra PD Singh (JC-377750X), 01 Aug 2010
- Nb Sub Ajayan R (JC-377751A), 01 Aug 2010
- Nb Sub Bache Singh (JC-377752H), 01 Aug 2010
- Nb Sub Bedanand Roy (JC-377753L), 02 Aug 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Shishpal Singh (JC-377754N), 01 Aug 2010
- Nb Sub Jeetan Prasad (JC-377755W), 01 Aug 2010
- Nb Sub Rattan Singh (JC-377756Y), 01 Aug 2010
- Nb Sub Roshan Lal (JC-377757F), 01 Aug 2010
- Nb Sub Hari Om (JC-377758K), 01 Aug 2010
- Nb Sub Subash Chander (JC-377759M), 01 Aug 2010
- Nb Sub MN Pattanaik (JC-377760F), 01 Aug 2010
- Nb Sub Sankarsan Swain (JC-377761K), 01 Aug 2010
- Nb Sub Ramesh Tiwari (JC-377762M), 01 Aug 2010
- Nb Sub Naresh Singh (JC-377763P), 01 Aug 2010
- Nb Sub RS Bhauriyal (JC-377765A), 01 Aug 2010
- Nb Sub Ranjit Singh (JC-377766H), 01 Aug 2010
- Nb Sub Vijay Bahadur Yadav (JC-378370L), 01 Aug 2010
- Nb Sub Pawan Kumar Singh (JC-377767L), 01 Aug 2010
- Nb Sub Rajbansh Singh (JC-377768N), 01 Aug 2010
- Nb Sub Jagtar Singh (JC-377769W), 01 Aug 2010
- Nb Sub Harpal Singh (JC-377770L), 01 Aug 2010
- Nb Sub Uday Narayan Singh (JC-377771N), 01 Sep 2010
- Nb Sub Prodip Chetia (JC-377833H), 08 Sep 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Krishna Kumar S (JC-377834L), 01 Sep 2010
- Nb Sub Halachal Prasad (JC-377836W), 01 Sep 2010
- Nb Sub Rajat Kumar Dey (JC-377837Y), 01 Sep 2010
- Nb Sub Krishna Chander (JC-377839K), 01 Sep 2010
- Nb Sub Jacob MK (JC-377840Y), 01 Sep 2010
- Nb Sub Kurda Ram (JC-377841F), 01 Sep 2010
- Nb Sub Dadan Yadav (JC-377842K), 01 Sep 2010
- Nb Sub NLP Mishra (JC-377844P), 01 Sep 2010
- Nb Sub Shiv Pratap Singh (JC-377845X), 01 Sep 2010
- Nb Sub Suresh Kumar S (JC-377846A), 01 Sep 2010
- Nb Sub Syed MD Ale Nowaj (JC-377847H), 01 Sep 2010
- Nb Sub Unnikrishnan K (JC-377848L), 01 Sep 2010
- Nb Sub Aher Apparao Bhika (JC-377849N), 01 Sep 2010
- Nb Sub PM Jena (JC-377850H), 01 Sep 2010
- Nb Sub DN Sahoo (JC-377851L), 01 Sep 2010
- Nb Sub Dhamal Ashok Joti Ram (JC-377852N), 01 Sep 2010
- Nb Sub Rohatash (JC-377853W), 01 Sep 2010
- Nb Sub Davinder Singh (JC-377854Y), 01 Sep 2010

- Nb Sub Kamble Arun Ram Rao (JC-377856K), 01 Sep 2010
- Nb Sub Gian Singh (JC-377857M), 01 Sep 2010
- Nb Sub Kanai Lal Das (JC-377858P), 01 Sep 2010
- Nb Sub Adam Ali (JC-377859X), 01 Sep 2010
- Nb Sub Manab Indra Das (JC-377860M), 01 Sep 2010
- Nb Sub Om Prakash Sharma (JC-377862X), 01 Sep 2010
- Nb Sub Kuldip Singh (JC-377863A), 01 Sep 2010
- Nb Sub Rajendra Singh (JC-377864H), 01 Sep 2010
- Nb Sub Bhim Singh (JC-377865L), 01 Sep 2010
- Nb Sub Raghunadhan M (JC-377866N), 01 Sep 2010
- Nb Sub Indresh Kumar (JC-377867W), 01 Sep 2010
- Nb Sub CM Kushabaha (JC-377868Y), 01 Sep 2010
- Nb Sub Surender Singh (JC-377869F), 01 Sep 2010
- Nb Sub Kanhaya Ram (JC-377870W), 01 Oct 2010
- Nb Sub Manoj Kumar Chaubey (JC-377871Y), 01 Oct 2010
- Nb Sub Shamsher Singh (JC-377872F), 01 Oct 2010
- Nb Sub KP Yadav (JC-377875P), 01 Oct 2010
- Nb Sub Sukhbir Singh (JC-377876X), 01 Oct 2010
- Nb Sub Munna Singh Parihar (JC-377877A), 03 Oct 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Jag Roop Singh (JC-377878H), 26 Oct 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Kulvir Singh (JC-377879L), 01 Oct 2010
- Nb Sub MP Singh (JC-377880A), 01 Oct 2010
- Nb Sub RK Singha (JC-377881H), 01 Oct 2010
- Nb Sub Manikantan Pillai J (JC-377882L), 01 Oct 2010
- Nb Sub Joga Singh (JC-377883N), 28 Oct 2010
(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)
- Nb Sub Surinder Singh (JC-377884W), 01 Oct 2010
- Nb Sub Premvir Singh (JC-377885Y), 01 Oct 2010
- Nb Sub Sidheswar N Singh (JC-377886F), 01 Oct 2010
- Nb Sub Anand Kumar Singh (JC-377887K), 01 Oct 2010
- Nb Sub Golam Almamun (JC-377888M), 01 Oct 2010
- Nb Sub Utpal Koner (JC-377889P), 01 Oct 2010
- Nb Sub Rati Ram (JC-377890K), 01 Oct 2010
- Nb Sub Kamal Bahadur Pradhan (JC-377891M), 01 Oct 2010
- Nb Sub Mukh Lal Singh (JC-377892P), 01 Oct 2010
- Nb Sub SK Deshmukh (JC-377893X), 01 Oct 2010
- Nb Sub Jagan Kishor Sharma (JC-377937K), 01 Oct 2010
- Nb Sub UHH Sankara Reddy (JC-377938M), 01 Oct 2010
- Nb Sub Ishwar Singh (JC-377939P), 01 Oct 2010
- Nb Sub Raveendran Nair G (JC-377940K), 01 Oct 2010
- Nb Sub B B Pandey (JC-377941M), 01 Oct 2010
- Nb Sub D Zulfikarali Bhutto (JC-377942P), 01 Oct 2010
- Nb Sub Ranjodh Singh (JC-377943X), 01 Oct 2010
- Nb Sub Suresh CS (JC-377944A), 01 Oct 2010
- Nb Sub MD Amir Ali (JC-377945H), 01 Oct 2010
- Nb Sub Surjit Ram (JC-377946L), 01 Oct 2010
- Nb Sub KH Ramendra Singha (JC-377948W), 01 Oct 2010
- Nb Sub Ganesh Prasad (JC-377949Y), 01 Oct 2010
- Nb Sub Gireesh Kumar J (JC-377950N), 01 Oct 2010
- Nb Sub Rajesh Kumar Sharma (JC-377951W), 01 Oct 2010
- Nb Sub Umesh Sharma (JC-377952Y), 01 Oct 2010
- Nb Sub Gajendra Singh (JC-377954K), 01 Oct 2010
- Nb Sub Ashok Kumar (JC-377956P), 01 Oct 2010
- Nb Sub Mukesh Kumar Sharma (JC-377957X), 01 Oct 2010
- Nb Sub Navin Kumar Verma (JC-377958A), 01 Oct 2010
- Nb Sub Mukesh Kumar (JC-377959H), 01 Oct 2010
- Nb Sub Chandan Singh (JC-377960X), 01 Oct 2010
- Nb Sub Mahavir Singh (JC-377962H), 01 Nov 2010
- Nb Sub Ram Datt (JC-377963L), 01 Nov 2010
- Nb Sub Pratap Singh (JC-377964N), 01 Nov 2010
- Nb Sub H Umananda Meetei (JC-377968K), 01 Nov 2010
- Nb Sub Ramesh Chand (JC-378003Y), 01 Nov 2010
- Nb Sub Sher Singh (JC-378004F), 01 Nov 2010
- Nb Sub Vireswar Misra (JC-378005K), 01 Nov 2010
- Nb Sub Shyam Sunder (JC-378008X), 01 Nov 2010
- Nb Sub Ramadhar Kairi (JC-378009), 01 Nov 2010
- Nb Sub Vinod Kumar (JC-378010P), 01 Nov 2010
- Nb Sub Satyavir (JC-378012A), 01 Nov 2010
- Nb Sub Vipan Prakash (JC-378013H), 01 Nov 2010
- Nb Sub Joginder Pal (JC-378014H), 01 Nov 2010
- Nb Sub Rup Chand (JC-378015N), 01 Nov 2010
- Nb Sub Ramesh Chand (JC-378016W), 01 Nov 2010
- Nb Sub Babban Yadav (JC-378017Y), 01 Nov 2010

Nb Sub Brij Lal (JC-378019K), 01 Nov 2010
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-378020Y), 01 Nov 2010
 Nb Sub Unnikrishna Kurup P (JC-378021F), 01 Nov 2010
 Nb Sub Ashwini Kumar Pandey (JC-378024P), 01 Nov 2010
 Nb Sub JK Pandey (JC-378025X), 01 Nov 2010
 Nb Sub Shivaji (JC-378026A), 01 Nov 2010
 Nb Sub Jayamohana Kurup S (JC-3778027H), 01 Nov 2010
 Nb Sub Karnail Singh (JC-378089H), 01 Nov 2010
 Nb Sub KV Siva Hanumaiah (JC-378090X), 01 Nov 2010
 Nb Sub Manoj Kumar (JC-378091A), 01 Nov 2010
 Nb Sub Sahib Singh (JC-378092H), 01 Nov 2010
 Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-378093L), 01 Nov 2010
 Nb Sub Diwakar Pant (JC-378094N), 01 Nov 2010
 Nb Sub Shyama Singh Yadav (JC-378096Y), 01 Nov 2010
 Nb Sub Sree Kumar R (JC-378097F), 03 Nov 2010
 (Granted seniority in the Rank of Sub wef 01 Nov 2010 without effect on pay and allowances)
 Nb Sub P Arul Das (JC-378098K), 01 Nov 2010
 Nb Sub Mohan Kumar Singh (JC-378099M), 01 Nov 2010
 Nb Sub Vidyanand Singh (JC-378100W), 01 Nov 2010

ARMY SERVICE CORPS

MECHANICAL TRANSPORT/SUPPLY

The President is pleased to make the following promotions :—

To be Sub Maj (PA)

Sub Sethu Madhavan TV (JC-642630Y), 01 Oct 2010

To be Sub Maj Clk (SD)

Sub Rajinder Prasad (JC-641501M), 01 Oct 2010

To be Sub Maj (MT)

Sub Sube Singh (JC-663121N), 14 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Sub Satish Kumar (JC-663117L), 01 Sep 2010

To be Sub Maj (MT)

Sub Joginder Pal (JC-663124F), 01 Oct 2010

To be Sub Maj (MT/Spl)

Nb Sub Mahesh Kumar (JC-664882L), 04 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Virender Singh Rajora (JC-664833H), 23 Aug 2010

Nb Sub Naryan Singh (JC-664834L), 29 Aug 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Pramod Kumar Patra (JC-664835N), 24 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satyandra Kumar Pandey (JC-665044H), 01 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2010 without effect on pay and allowances)

To be Sub (SKT)

Nb Sub Ajit Singh (JC-663193X), 26 Aug 2010*

*(Gtd Seniority in the rank of Subedar wef 01 Jul 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gopa Kumar B (JC-662864K), 20 Aug 2010*

*(Gtd Seniority in the rank of Subedar wef 01 Jun 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub More Sanjay Vithoba (JC-662916P), 01 Oct 2010*

*(Gtd Seniority in the rank of Subedar wef 01 Apr 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Ch VV Satyanarayana (JC-663021H), 01 Oct 2010

Nb Sub Binod Kumar Singh (JC-663052H), 01 Oct 2010

Nb Sub Bhagat Singh (JC-663100X), 01 Oct 2010

Nb Sub Brajesh Babu (JC-663018H), 01 Oct 2010

Nb Sub George Philip (JC-663020A), 01 Oct 2010

Nb Sub Pawar Shivaji Babu Rao (JC-663192P), 01 Oct 2010

Nb Sub Sachhidanand Tiwary (JC-663099N), 01 Oct 2010

To be Sub Personal Assistant

Nb Sub Ram Kumar Singh Mehla (JC-664549M), 09 Aug 2010*

*(Gtd Seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2010 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anil Mohanty (JC-664550F), 01 Oct 2010

Nb Sub Dal Chand (JC-664551K), 01 Oct 2010

Nb Sub Rajeev Kumar Singh Chauhan (JC-664552M), 01 Oct 2010

Nb Sub Rajendra Kumar Avale (JC-664553P), 01 Oct 2010

To be Sub Clk (SD)

Nb Sub Devender Kumar (JC-643213Y), 25 Sep 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Sub wef 22 Jun 2010 without effect on pay and allces)

Nb Sub Pradipta Kumar Gouda (JC-664532Y), 01 Oct 2010

Nb Sub Sanjay Kumar Mandal (JC-664569A), 01 Oct 2010

Nb Sub Dhan Raj (JC-664570P), 01 Oct 2010

Nb Sub Jalim Singh (JC-664572A), 01 Oct 2010

Nb Sub Tap Narayan Pandey (JC-664573H), 01 Oct 2010

Nb Sub Rabindra Kumar Ojha (JC-664574L), 01 Oct 2010

Nb Sub Bhishmadeb Hazra (JC-664575N), 01 Oct 2010

Nb Sub Akul Chandra Mondal (JC-664577Y), 01 Oct 2010

Nb Sub Upendra Singh (JC-664598P), 01 Oct 2010

Nb Sub Ram Kumar Verma (JC-664646K), 01 Oct 2010

Nb Sub Ram Sumiran (JC-664647M), 01 Oct 2010

Nb Sub Smar Ghosh (JC-664648P), 01 Oct 2010

Nb Sub Naresh Kumar (JC-664649X), 01 Oct 2010

Nb Sub Mahesh Chandra (JC-664650M), 01 Oct 2010

To be Nb Sub : Clk (SD)

Hav Rajpal Saini (No. 6383333M now JC-667438A), 01 Sep 2010

Hav Upendra Kumar Behera (No. 6383205P now JC-667439H), 05 Oct 2010*

Hav Deepak Kumar Das (No. 6383027X now JC-667440X), 04 Oct 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2010 without effect on pay and allces)

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substatntive Sub (GD)

Nb Sub Ratti Ram Yadav (JC-270328H), 23 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Shailendra Singh (JC-270280A), 01 Oct 2010

Nb Sub Jaswinder Singh (JC-270034P), 29 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Prakash Chand Pant (JC-270202H), 05 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Rajbir (JC-270640L), 11 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Mahesh Singh (JC-270919K), 20 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Preman TP (JC-271057H), 29 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Hari Krishan Belwal (JC-272421H), 05 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Ram Pukar Mishra (JC-271732K), 01 Oct 2010

Nb Sub Sardar Singh (JC-271377X), 01 Nov 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Ratnakar Pandey (JC-271411M), 02 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Roop Singh (JC-271505K), 01 Oct 2010

Nb Sub Nagender Singh (JC-271646Y), 12 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Dhani Ram (JC-271710L), 09 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Harmesh Singh (JC-271926M), 04 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Bharat Handique (JC-272169P), 27 Nov 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Mahender Singh (JC-272511K), 01 Oct 2010

Nb Sub Dinesh Yadav (JC-272706P), 23 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub P Sagayanathan (JC-272625P), 13 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Shanti Kumar (JC-272857N), 01 Oct 2010

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-273154Y), 29 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Dalvi Gopinath Taterao (JC-273866F), 08 Oct 2010/01 Oct 2010*

Nb Sub Bhagiya Hemat Bhikha Lal (JC-269250W), 28 Jun 2010/12 Apr 2010*

Nb Sub Ashim Kumar Biswas (JC-272999L), 02 Oct 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Dinesh Ray (JC-271887Y), 25 Aug 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Lahori Ram (JC-272387N), 03 Aug 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Vipran Kumar (JC-271957M), 26 Aug 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Nagappa Mugad (JC-270677M), 02 Aug 2010/01 Apr 2010*

Nb Sub Kakde Namdeo Bapurao (JC-269366M), 27 Aug 2010/12 Apr 2010*

Nb Sub Chandan Singh Kandari (JC-269795N), 15 Sep 2010/05 Jun 2010*

Nb Sub Ramanand (JC-273271K), 05 Aug 2010/01 Jun 2010*

Nb Sub Pratap Singh (JC-270055L), 16 Aug 2010/01 Jul 2010*

*(Gtd seniority wef)

Nb Sub Bachittar Singh (JC-272408Y), 19 Oct 2010/17 Aug 2010*

Nb Sub Hule Anand Gangaram (JC-270594F), 01 Oct 2010/27 Jul 2010*

Nb Sub Ranjeet Kumar Sinha (JC-269568N), 06 Sep 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Lal Babu Ray (JC-273940M), 24 Sep 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Biju J (JC-271610A), 20 Sep 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Govindji Pandey (JC-274349W), 29 Sep 2010/16 Aug 2010*

Nb Sub Arjun Bhangi (JC-274588L), 01 Oct 2010/17 Aug 2010*

Nb Sub V Govida Raju (JC-269902K), 18 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Chandreshwar Singh (JC-269653W), 10 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Mukesh Kumar (JC-270497K), 25 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Gaje Singh (JC-270473A), 07 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Ramesh Singh (JC-270535P), 28 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Ravinder Singh (JC-270896N), 09 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Daleep Kumar (JC-270780X), 30 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Mahender Singh (JC-271793F), 24 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Basayya Pujar (JC-272117Y), 10 Sep 2010/02 Aug 2010*

Nb Sub Devraj (JC-271157N), 01 Nov 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub R Raja Pandi (JC-271355Y), 10 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Gurbachan Singh (JC-271134M), 27 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Vijay Singh (JC-272109A), 15 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Sumer Singh Katewa (JC-271525X), 01 Sep 2010

Nb Sub Ram Kishor Sharma (JC-271813K), 17 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Dharampal Singh (JC-272084Y), 19 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Surinder Paul Singh (JC-272135F), 03 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Raj Kumar (JC-272207A), 15 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub T Pappaiyan (JC-272065N), 13 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Vijay Kumar Srivastava (JC-272311N), 09 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Upendra Kumar Singh (JC-273022L), 20 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Lal Singh (JC-272487Y), 06 Oct 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub Dhara Singh (JC-272578H), 21 Sep 2010/01 Sep 2010*

Nb Sub M D Kalamuddin (JC-273204L), 19 Sep 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Chaman Lal (JC-273685W), 10 Oct 2010/01 Aug 2010*

*(Gtd Seniority wef)

Nb Sub Kunwar Bahadur Singh (JC-269047A), 22 Jul 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Jasvir Singh (JC-270085H), 27 Jul 2010/06 Mar 2010*

Nb Sub Subhash Chand (JC-270259X), 27 Aug 2010/07 Mar 2010*

Nb Sub Subhash Chand (JC-268382X), 04 Jun 2010/12 Apr 2010*

Nb Sub Amar Singh (JC-272251K), 05 Jul 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Trushpal Singh Tomar (JC-272427K), 07 Sep 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Pana Ram (JC-272358Y), 03 Aug 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Paren Deka (JC-272260L), 17 Jul 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Tilak Raj (JC-272827W), 18 Aug 2010/30 Apr 2010*

Nb Sub Roop Singh (JC-271588A), 19 Aug 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Kishan Pal Singh (JC-271323W), 29 Sep 2010/01 Jun 2010*

Nb Sub Ramanuj Sharma (JC-271200K), 02 Sep 2010/01 Jun 2010*

Nb Sub Prabha A K (JC-271221A), 29 Sep 2010/01 Jun 2010*

Nb Sub Bhinder Kumar (JC-271876M), 14 Aug 2010/01 Jun 2010*

Nb Sub Prem Kumar Singh (JC-268990Y), 15 Sep 2010/05 Jun 2010*

Nb Sub Joginder Lal (JC-269514M), 15 Jul 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Anand Kumar (JC-269789A), 14 Sep 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Dilbag Singh (JC-270487A), 16 Jul 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Chaman Lal (JC-271025A), 08 Jul 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Bandekar Deenkar Sabaji (JC-270545Y), 13 Sep 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Jagdish Singh (JC-269588F), 20 Aug 2010/12 Jul 2010*

Nb Sub Rambir Singh (JC-270265L), 06 Sep 2010/31 Jul 2010*

Nb Sub Ram Prakash Pal (JC-270309X), 27 Sep 2010/27 Jul 2010*

Nb Sub Satyabir Singh (JC-269687K), 01 Oct 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Deba Kumar Dehingia (JC-270603X), 01 Jul 2010/03 Jun 2010*

Nb Sub Dhan Raj Gurung (JC-270489L), 01 Jul 2010/01 Jun 2010*

Nb Sub Hari Oum (JC-271734P), 12 Jul 2010/01 Jul 2010*

Nb Sub Nimbalkar Ganpati Shankar (JC-271205H), 13 Dec 2009/01 Oct 2009*

Nb Sub Birendra Prasad Singh (JC-270128M), 18 Jan 2010/21 Dec 2009*

Nb Sub Bhagwan Dass (JC-270454P), 21 Jan 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Chandrasekharan K P (JC-271214K), 19 Feb 2010/01 Jan 2010*

Nb Sub Randhir Singh (JC-269299M), 26 Mar 2010/01 Jan 2010

*(Gtd seniority wef)

Nb Sub Subramany G (JC-269599N), 03 Nov 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Yash Paul (JC-270403F), 01 Aug 2010

Nb Sub S Chellathurai (JC-270646M), 09 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Chandra Malla George (JC-270833L), 02 Sep 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Lalan Kumar Vishonath Ray (JC-271002Y), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Lal Bahadur Yadav (JC-271650F), 25 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-271944P), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Bhanwar Singh Kanawat (JC-272006F), 04 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub R Ravi (JC-272101N), 19 Oct 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Kuldeep Singh (JC-272389Y), 23 Sep 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Dinesh Kumar Karade (JC-272649Y), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Man Singh (JC-272348P), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Joseph James D'Souza (JC-272624M), 09 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Shri Niwas Sah (JC-272638M), 01 Aug 2010

Nb Sub Subhash Chander Yadav (JC-273003A), 16 Sep 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Binu S (JC-273242P), 19 Aug 2010/01 Aug 2010*

Nb Sub Manphool Singh (JC-273731A), 01 Sep 2010/02 Aug 2010*

Nb Sub Sree Kumar D (JC-272383X), 30 Aug 2010/05 Aug 2010*

Nb Sub Kishor Kumar Routray (JC-273171Y), 08 Sep 2010/10 Aug 2010*

Nb Sub Nihal Singh (JC-273604L), 10 Sep 2010/10 Aug 2010*

Nb Sub Santosh (JC-274372K), 04 Oct 2010/10 Aug 2010*

Nb Sub Manoj Kumar (JC-274556H), 04 Oct 2010/10 Aug 2010*

Nb Sub Abhimanu Kumar Singh (JC-272331F), 05 Oct 2010/14 Aug 2010*

Nb Sub Parmod Kumar Pandey (JC-271837N), 12 Oct 2010/16 Aug 2010*

Nb Sub Jashwinder Singh (JC-269962Y), 28 Oct 2010/19 Aug 2010*

Nb Sub Jagbir Singh (JC-272705M), 01 Oct 2010/20 Aug 2010*

Nb Sub Satnam Singh (JC-272793N), 06 Nov 2010/23 Aug 2010*

Nb Sub Bishnu Charan Sahoo (JC-273791P), 15 Oct 2010/28 Aug 2010*

Nb Sub Satyendra Kumar (JC-273119W), 02 Nov 2010/30 Aug 2010*

Nb Sub Raj Bahadur Singh (JC-271499F), 01 Nov 2010/31 Aug 2010*

Nb Sub Manik Chandra Khan (JC-271564W), 06 Oct 2010/31 Aug 2010*

Nb Sub Md Samim Ahmed (JC-261856Y), 06 Oct 2010/31 Aug 2010*

*(Gtd Seniority wef)

To be Nb Sub

Hav Abdul Mazed Ahmed (No. 15116180Y now JC-275361K), 21 Jun 2010/01 Apr 2010*

Hav Jagdish Singh Tanwar (No. 14397333H now JC-275362M), 17 Jun 2010/30 Apr 2010*

Hav Ram Chandra (No. 15119047F now JC-275363P), 10 May 2010/01 May 2010*

Hav Kulwant Singh (No. 15120060X now JC-275364X), 13 May 2010/01 May 2010*

Hav P Irudaya Raj (No. 14411026Y now JC-275365A), 28 Jul 2010/01 May 2010*

Hav Kulbir Singh (No. 15109467N now JC-275366H), 16 Aug 2010/09 May 2010*

Hav G Edwin Michael (No. 14401614M now JC-275367L), 10 Jun 2010/01 Jun 2010*

Hav Balwan Singh (No. 15109195Y now JC-275368N), 23 Jun 2010/01 Jun 2010*

Hav Kadam Rajkumar Dhondiram (No. 14411283W now JC-275369W), 12 Aug 2010/01 Jul 2010*

Hav More Sambhaji Apparao (No. 15111545Y now JC-275370L), 05 Jul 2010/01 Jul 2010*

Hav Ugam Singh (No. 15114100X now JC-275371N), 03 Jul 2010/01 Jul 2010*

Hav Jitendra Kumar (No. 15126047K now JC-275372W), 02 Jul 2010/01 Jul 2010*

Hav Karambir (No. 14406295F now JC-275373Y), 01 Aug 2010

Hav Mouji Ram (No. 15110522L now JC-275374F), 06 Jul 2010/25 Nov 2009*

Hav Sadashiv Jadhav (No. 14414230H now JC-275375K), 09 Apr 2010/30 Nov 2010*

Hav Chandiram P (No. 15114532M now JC-275376M), 03 Mar 2010/01 Jan 2010*

Hav Ranjeet Singh Grewal (No. 14404406P now JC-275377P), 03 Jul 2010/06 Mar 2010*

Hav Subhasis Bera (No. 14416614W now JC-275378X), 15 Aug 2010/01 Apr 2010*

Hav Hardip Singh (No. 15109169X now JC-275379A), 28 Jul 2010/30 Apr 2010*

Hav Darekar Santosh Mohan Rao (No. 15120765K now JC-275380P), 03 Aug 2010/04 May 2010*

Hav Sreenivasa Rao Orchu (No. 15120921H now JC-275381X), 05 Aug 2010/01 Jun 2010*

Hav Madan Mohan Singh (No. 14391918A now JC-275382A), 26 Jul 2010/01 Jun 2010*

Hav Jadhav Pramod Chandrakant (No. 15122482F now JC-275383H), 26 Jul 2010/01 Jun 2010*

Hav Sube Singh (No. 14393307K now JC-275384L), 04 Jul 2010/04 Jun 2010*

Hav Mahesh Chandra (No. 14401539A now JC-275385N), 04 Aug 2010/26 Jun 2010*

Hav Lakhan Lal (No. 15115687N now JC-275386W), 12 Aug 2010/01 Jul 2010*

Hav Roshan Lal (No. 14392381Y now JC-275387Y), 09 Aug 2010/01 Jul 2010*

Hav Ajay Sandeep Kujur (No. 15138823L now JC-275388F), 07 Aug 2010/16 Jul 2010*

Hav Chacko KC (No. 14404811M now JC-275389K), 02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Hav Kuldip Singh (No. 15118511N now JC-275390Y), 13 Feb 2010/01 Apr 2009*

Hav P Samuthiram (No. 15110673K now JC-275391F), 24 Jul 2010/30 Nov 2009*

Hav Surya Prasad Jalagadugula (No. 15133618A now JC-275392K), 28 Jul 2010/10 Feb 2010*

*(Gtd seniority wef)

A V BAGUR
Under Secy

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGR BRANCH

No. 143, dated 24th February 2011—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion :—

To be Sub Master Tech B VEH

Jitender Kumar (JC-759415Y), 18 Aug 2010/01 Aug 2010*

Prafulla Kumar Sahoo (JC-759588W), 01 Sep 2009

Upendra Kumar Diwakar (JC-759363N), 05 Sep 2010/01 Aug 2010*

To be Sub Auto Tech B VEH

Mali Hanamant Dattatray (JC-763817N), 21 Aug 2010/01 Aug 2010*

Sukhdev (JC-763832H), 01 Sep 2010	To be Sub AC & RF
Kundan Singh (JC-763856M), 01 Sep 2010	Satyapal Singh (JC-761274N), 13 Sep 2010/01 Sep 2010*
Peerjade Ahamad Pasha Imamdin (JC-763829H), 01 Sep 2010	To be Sub Master Tech AVN (Elect)
Gena Ram (JC-763824K), 01 Sep 2010	Pramod Kumar Shishodia (JC-760644W), 01 Sep 2010
Davinder Singh (JC-763819Y), 21 Sep 2010/01 Sep 2010*	*(Gtd ante dated seniority)
To be Sub Clk (SD)	To be Nb Sub AVN Tech (I & P)
Tarapad Parida (JC-760306Y), 25 Aug 2010/01 Aug 2010*	Kshirsagar Kakasaheb (No. 14590960W now JC-764652M), 14 Aug 2010/01 Feb 2010*
Naykude Dilavar Samsheer (JC-760497Y), 01 Sep 2010	To be Nb Sub SKT
Dhrambir (JC-760380A), 01 Sep 2010	Tuhin Kanti Biswas (No. 14613169F now JC-764692N), 01 Apr 2010
Hukma Ram Manda (JC-760307F), 01 Sep 2010	Vikram Singh (No. 14613531K now JC-765260L), 01 Aug 2010
Chandra Sekaran M (JC-760499K), 01 Sep 2010	Shantanu Roy (No. 14613572N now JC-765263Y), 01 Aug 2010
Ranvir Singh (JC-760379L), 01 Sep 2010	To be Nb Sub Master Tech I(Elect)
To be Sub OPR & DVR (Recovery)	Rakesh Kumar (No. 1462337X now JC-764703P), 13 Aug 2010/01 Mar 2010*
Rohitash Yadav (JC-756291K), 01 Sep 2010	Samir Ghosh (No. 14626444P now JC-765144H), 21 Aug 2010/01 Jul 2010*
Hanamant Gavada (JC-756177M), 01 Sep 2010	To be Nb Sub Tech SA
To be Sub DVR(MT)	Satyavir (No. 14577049P now JC-764870L), 01 Apr 2010
Raghunath Thakur (JC-762475Y), 01 Sep 2010	Tilak Raj (No. 14595865N now JC-765282K), 01 Aug 2010
Pritam Singh (JC-762476F), 01 Sep 2010	To be Nb Sub Master Tech AVF (AF)
To be Sub Master Tech C VEH	Kanirajan M (No. 14615346P now JC-764884L), 01 Apr 2010
Ram Prakash (JC-759523H), 01 Sep 2010	S Abhilash Kumar (No. 14625769W now JC-764887Y), 01 Apr 2010
To be Sub Master Tech Conn	Abhay Singh (No. 14634617W now JC-765202F), 07 Aug 2010/01 Aug 2010*
Ellumalai K (JC-759551P), 01 Sep 2010	Rajat Kumar Mandal (No. 14634718K now JC-765203K), 09 Aug 2010/01 Aug 2010*
To be Sub Tech SA	Sushil Kumar (No. 14635492W now JC-765204M), 09 Aug 2010/01 Aug 2010*
Kishna Ram (JC-760374M), 01 Sep 2010	To be Nb Sub Master Tech AVF (ELE)
Swaroop Chand (JC-760376X), 01 Sep 2010	Om Prakash Singh (No. 14609355A now JC-764904N), 01 Apr 2010
Suresh (JC-760375P), 01 Sep 2010	Rajendra Nath Jena (No. 14609471H now JC-764998W), 01 Jun 2010
Rajvir Singh (JC-760493H), 01 Sep 2010	Bala Raja A (No. 14622630N now JC-765030X), 19 Jul 2010/25 Apr 2010*
Shyam Bihari (JC-760491X), 01 Sep 2010	Kehar Singh (No. 14613040N now JC-765087M), 03 Sep 2010/01 Jul 2010*
To be Sub SKT	
Rajendra Bahadur Singh (JC-762811A), 01 Sep 2010	
Devender Kumar (JC-762812H), 01 Sep 2010	
Basanta Kumar Swain (JC-762813L), 01 Sep 2010	
To be Sub Master Tech A VEH	
B Satyanand Patnaik (JC-759422P), 01 Sep 2010	
Mahesh Kumar (JC-759423X), 01 Sep 2010	
Shri Kanta Kalita (JC-759421M), 01 Sep 2010*	
Niranjan Prasad Singh (JC-759430N), 01 Sep 2010	
To be Sub Welder	
Uma Shankar Singh (JC-760935W), 01 Sep 2010	
Kuwar Singh (JC-760998Y), 01 Sep 2010	

Ingale Shahji Ramling (No. 14619232F now JC-765177N),
02 Aug 2010/01 Aug 2010*

To be Nb Sub Master Tech B Veh

Tapas KR Patra (No. 14619247K now JC-765179Y),
01 Aug 2010

Rajendra Nath Jena (No. 14609471H now JC-764998W),
01 Jun 2010

To be Nb Sub Machinist

Jalaluddin Ansari (No. 14582875Y now JC-765054F),
03 Aug 2010/01 Aug 2010*

To be Nb Sub Master Techn Comn

Vijay Shanker N (No. 14623166F now JC-765137M),
01 Aug 2010

J Deendayalan (No. 14623641M now JC-765138P),
01 Aug 2010

To be Nb Sub Tech Opto Elect

Bishnu Kumar (No. 14578228F now JC-765158H), 07 Jul
2010/01 Jul 2010*

To be Nb Sub DVR (MT)

Upendra Prasad (No. 14584841K now JC-765191A),
01 Aug 2010

To Nb Sub Master Tech Opto Elect

Kishore Chandra Naik (No. 14619734K now JC-
765198K), 05 Aug 2010/30 May 2010*

Shiv Chand (No. 14614739Y now JC-765209L), 01 Aug
2010

Kirpal Singh (No. 14614933N now JC-765210A), 04 Aug
2010/01 Aug 2010*

To be Nb Sub Master Tech AVF (AEN)

Narendra Kumar Bharati (No. 14636174Y now JC-
765201Y), 03 Aug 2010/01 Aug 2010*

To be Nb Sub Master Tech Net Working

Parmar Dilip Kumar (No. 14616911N now JC-765207A),
12 Aug 2010/01 Aug 2010*

To be Nb Sub Opr & Dvr (REC)

C Dhanapal (No. 14583168F now JC-765233F), 03 Aug
2010/01 Aug 2010*

Sanjay Prasad (No. 14583177H now JC-765235M),
16 Aug 2010/01 Aug 2010*

Bhom Singh Inda (No. 14583422A now JC-765236P),
20 Aug 2010/01 Aug 2010*

To be Nb Sub Armt Tech (AFV/AD)

Shiv Murat Pal (No. 14573408A now JC-765239H),
04 Aug 2010/01 Aug 2010*

To be Nb Sub Clk (SD)

Ajay Pal Singh (No. 14587245H now JC-765246Y),
01 Aug 2010

Raj Narayan Sharma (No. 14587249Y now JC-765247F),
02 Aug 2010/01 Aug 2010*

Anil Kumar Gautam (No. 14587949M Now JC-765250F),
01 Aug 2010

Babu Daniel M (No. 14589862K now JC-765253P),
01 Sep 2010

Basava Raj Koni (No. 14589675L now JC-765257L),
01 Sep 2010

N. K. KASHMIRA
Under Secy.

AIR BRANCH

No. 144, dated 25 February 2011—The President is pleased
to make the following Substantive Promotions:—

INDIAN AIR FORCE

AE BRANCH

To be Sub Air Vice Marshal

AVM NM Vaishnavi (No. 14822), AE(L), 18 October 2010
(NS-01.04.2009)

(His name will appear below AVM A Singhal (No. 14615)
AE(L) and above AVM VK Narang (No. 14326) AE(L) in
the Combined Gradation List)

To be Sub Air CMDE (ADM Branch)

Air CMDE SK Chakrabarty (15910), ADM, 28 Jun 2010

Air CMDE H Tiagi (16099), ADM, 02 Aug 2010

To be Sub GP Capt (ADM Branch)

GP Capt RDS Rawat (18313), ADM, 03 May 2010

GP Capt AK Bhatnagar (18319), ADM, 01 Jun 2010

GP Capt PK Ghosh (18324), ADM, 01 Jul 2010

GP Capt PP Sathe (17583), MET, 27 Sep 2010, (NS
12 Apr 2010)

His Name will Appear below GP Capt KS Babu (17588)
ADM and above GP Capt S Tyagi (18430) ADM in the
Combined Gradation list

GP Capt BS Jha (18419), MET, 04 Oct 2010,
(NS 14 Jun 2010)

His Name will Appear below GP Capt N Sharma (18421)
ADM and above GP Capt JK Sahu (18862) ADM in the
Combined Gradation list

GP Capt (ACTG) R Vaid (18798), F(P), 14 Dec 2009

A K SINGH
Dy Dir Personnel (Officer)-2B

ARMY BRANCH

No. 145, dated 25 Feb 2011—The president is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 25 Jun 2008 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To Be FLT Lt

Vinod C N (MS-15084W), (AF-28379H), (MR-09046K), AMC, 17 May 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Jun 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

The president is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 01 Jul 2009 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To Be Lt

Mayank Namdeo (MS-15279F), (MR-09053A), AMC, 13 Mar 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 Feb 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To Be Surg Lt

Shazia Khan (MS-15464P), (75941T), (MR-09056N), AMC, 22 Jan 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 24 Nov 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To Be Sub Lt(On Prob)

Priyadarshee Patra (MS-15407N), (75932Y), (MR-09059F), AMC, 12 Oct 2006

(MoD Notification published in Gazette of India dated 17 May 2008 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Natasha (MS-114925F), (75881F), (MR-09050M), AMC, 21 Feb 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 28 May 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

To be Surg Lt

Madhuri Matta (MS-09051P), (MS-15247Y), (75923A), AMC, 21 Apr 2006 with seniority for pay and promotion from 21 Apr 2003 this includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (General Medicine) which will not count for gratuity

(MoD Notification published in Gazette of India dated 08 Sep 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Vipin Kawatra (MS-15465X), (75942W), (MR-09055L), AMC, 22 Jan 2007

(MoD Notification published in Gazette of India dated 24 Nov 2007 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled)

Brig YASH PANDE
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 146, dated 25 Feb 2011—The president is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform:—

TERRITORIAL ARMY
RETIREMENT

Lt Col Raj Shukla (TA-42100), (Infantry), 30 Sep 2010(AN)

JAI RAJ
Deputy Secy